



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 11—दिसम्बर 17, 2010 (अग्रहायण 20, 1932)

No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 11—DECEMBER 17, 2010 (AGRAHAYANA 20, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110101, दिनांक 22 नवम्बर 2010

सं. ए-22012/004/2010-पीएमई--राष्ट्रपति, श्री टी. आर. नायर को दिनांक 2 नवम्बर, 2010 (पूर्वाह्न) से राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् में रु. 7,600/- के ग्रेड-पे के साथ पे-बैंड-3 (15,600--39,100/- रुपये) में प्रतिनियुक्ति के आधार पर वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करती हैं।

के. सलिल कुमार, अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 नवम्बर 2010

सं. आर.एस./6/4/2010/111-कार्मिक--दिनांक 24 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना सं. आर.एस./6/4/2009/77-कार्मिक का अधिक्रमण करते हुए, वाणिज्य संबंधी समिति के अध्यक्ष (श्री शांता कुमार) के वैयक्तिक स्टाफ में सह-पदावसान आधार पर श्री सतीश धर की नियुक्ति

को, राज्य सभा सचिवालय में 15,600--39,100/- रुपये के वेतन बैंड-3 + 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में, 1 सितम्बर, 2009 के पूर्वाह्न से प्रभावी कर दिया गया है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 अक्टूबर 2010

सं. पी.एफ.1484-आर(3)/जीएन-6478/एएन-1--अध्यक्ष महोदया, श्री अजय आनंद, आईपीएस (उ.प्र.: 92), जो बीएसएफ में प्रतिनियुक्ति आधार पर उप-महानिरीक्षक के रूप में कार्यरत थे, को लोक सभा सचिवालय में 37,400--67,000/- रुपये (पीबी-4) + ग्रेड पे 8,900/- रुपये के वेतन बैंड में प्रतिनियुक्ति आधार पर निदेशक (सुरक्षा) के रूप में 1 अक्टूबर, 2010 से 15 जुलाई, 2014 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करती हैं।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

दिनांक 5 अक्टूबर 2010

सं. पी.एफ.757-आर(3)/जीएन-6479/एएन-1/2010--अध्यक्ष महोदया, 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 8,000/- रुपये के वेतन बैंड में कार्यरत अपर निदेशक (लाडिस), श्रीमती आशा वांगू को 37,400--67,000/- रुपये (पीबी-4) + ग्रेड पे 8,700/- रुपये के वेतन बैंड में निदेशक (लाडिस) के ग्रेड में 1 अक्टूबर, 2010 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करती है।

पी. के. गोवर, संयुक्त सचिव

दिनांक 8 अक्टूबर 2010

सं. पी.एफ.1023-आर(7)/जीएन-6480/एएन-1/2010--श्रीमती शशि पाहवा ने निजी सचिव के ग्रेड में परिवीक्षा-अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 10 जून, 2009 की अधिसूचना सं. जीएन-6233 के क्रम में है।

पी. के. गोवर, संयुक्त सचिव

दिनांक 13 अक्टूबर 2010

सं. पी.एफ.924-आर(3)/जीएन-6481/एएन-1/2010--अध्यक्ष महोदया, 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600/- रुपये के वेतन बैंड में कार्यरत संयुक्त निदेशक (रिपोर्टिंग), श्री के. वी. जगन्नाथ को 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 8,000/- रुपये के वेतन बैंड में अपर निदेशक (रिपोर्टिंग) के ग्रेड में 13 अक्टूबर, 2010 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करती है।

पी. के. गोवर, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ.950-आर(3)/जीएन-6482/एएन-1/2010--अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित संसदीय रिपोर्टों ग्रेड-1, जिन्हें दिनांक 3.3.2007 की अधिसूचना सं. जीएन-5846 के द्वारा तदर्थ आधार पर संयुक्त निदेशक (रिपोर्टिंग) के रूप में नियुक्त किया गया था, को 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600/- रुपये के वेतन बैंड में कार्यरत संयुक्त निदेशक (रिपोर्टिंग), के ग्रेड में नियमित आधार पर नीचे दर्शाए गए क्रम में 13 अक्टूबर, 2010 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करती है:--

1. श्री मुथैया मोहन
2. श्री सोमनाथ बनर्जी

पी. के. गोवर, संयुक्त सचिव

दिनांक 15 अक्टूबर 2010

सं. पी.एफ.972-आर(3)/जीएन-6483/एएन-1/2010--अध्यक्ष महोदया, 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 8,000/-

रुपये के वेतन बैंड में कार्यरत अपर निदेशक (पीएसएस), श्रीमती रतन पाल गोवर को 37,400--67,000/- रुपये (पीबी-4) + ग्रेड पे 8,700/- रुपये के वेतन बैंड में निदेशक (पीएसएस) के ग्रेड में 13 अक्टूबर, 2010 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करती है।

पी. के. गोवर, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ.979-आर(3)/जीएन-6484/एएन-1/2010--अध्यक्ष महोदया, 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600/- रुपये के वेतन बैंड में कार्यरत निम्नलिखित संयुक्त निदेशकों (पीएसएस) को 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 8,000/- रुपये के वेतन बैंड में अपर निदेशक (पीएसएस) के ग्रेड में, नीचे दर्शाए गए क्रम में, 13 अक्टूबर, 2010 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करती है:--

1. श्रीमती मधु तनेजा
2. श्रीमती गजिन्दर पाल कौर

पी. के. गोवर, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ.995-आर(3)/जीएन-6485/एएन-1/2010--अध्यक्ष महोदया, 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के वेतन बैंड में कार्यरत वरिष्ठ निजी सचिव, श्रीमती सविता कक्कड़ जिन्हें दिनांक 12 अगस्त, 2009 की अधिसूचना सं. जीएन-6288 के द्वारा तदर्थ आधार पर संयुक्त निदेशक (पीएसएस) के रूप में नियुक्त किया गया था, को 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600/- रुपये के वेतन बैंड में संयुक्त निदेशक (पीएसएस) के ग्रेड में नियमित आधार पर 13 अक्टूबर, 2010 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करती है।

पी. के. गोवर, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ.996-आर(3)/जीएन-6486/एएन-1/2010--अध्यक्ष महोदया, 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के वेतन बैंड में कार्यरत वरिष्ठ निजी सचिव, श्रीमती नीलम तुली को 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600/- रुपये के वेतन बैंड में संयुक्त निदेशक (पीएसएस) के ग्रेड में 13 अक्टूबर, 2010 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करती है।

पी. के. गोवर, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ.1533-आर(3)/जीएन-6487/एएन-1/2010--अध्यक्ष महोदया, 9,300--34,800/- रुपये (पीबी-2) + ग्रेड पे 4,800/- रुपये के वेतन बैंड में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सुरक्षा सहायकों को 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 5,400/- रुपये के वेतन बैंड में सुरक्षा अधिकारी के ग्रेड में स्थानापन्न रूप में, नीचे दर्शाए गए

क्रम में, 13 अक्टूबर, 2010 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करती हैं:--

1. श्री रंजीत सिंह
2. श्री अशोक कुमार त्यागी
3. श्री मदन लाल-1

2. वे 13 अक्टूबर, 2010 से 12 अक्टूबर, 2012 तक की दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

3. उनकी सुरक्षा अधिकारी के ग्रेड में परस्पर वरिष्ठता 20 दिसम्बर, 2003 के आर एंड सीएस आदेश सं. पीडीए-1076/2003 के निबंधनों के अनुसार विनियमित होगी।

• पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ.1335-आर(3)/जीएन-6488/एएन-1/2010--अध्यक्ष महोदया, 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के वेतन बैंड में कार्यरत संपादक, श्री राकेश कुमार को 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600/- रुपये के वेतन बैंड में संयुक्त निदेशक (अनुवाद) के ग्रेड में 13 अक्टूबर, 2010 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करती हैं।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ.1420-आर(3)/जीएन-6489/एएन-1/2010--अध्यक्ष महोदया, 9,300--34,800/- रुपये (पीबी-2) + ग्रेड पे 4,800/- रुपये के वेतन बैंड में कार्यरत अनुवादक, श्री लक्ष्मण प्रसाद, जिन्हें दिनांक 15 जुलाई, 2008 की अधिसूचना सं. पीएफ.1420-आर(3)/जीएन-6078/एएन-1/2008 के द्वारा तदर्थ आधार पर सहायक संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था, को 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 5,400/- रुपये के वेतन बैंड में सहायक संपादक के ग्रेड में नियमित आधार पर, स्थानापन्न रूप में, 13 अक्टूबर, 2010 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करती हैं। वह सहायक संपादक के ग्रेड में डॉ. (श्रीमती) वंदना ग्रोवर डावर से वरिष्ठ किंतु श्री केशव चन्द्र झा से कनिष्ठ होंगे।

2. वह सहायक संपादक के ग्रेड में 13.10.2010 से 12.10.2012 तक की दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ.1417-आर(3)/जीएन-6490/एएन-1/2010--अध्यक्ष महोदया, 9,300--34,800/- रुपये (पीबी-2) + ग्रेड पे 4,800/- रुपये के वेतन बैंड में कार्यरत निम्नलिखित अनुवादकों, को 15,600--39,100/-

रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 5,400/- रुपये के वेतन बैंड में सहायक संपादक के ग्रेड में, स्थानापन्न रूप में, नीचे दर्शाए गये क्रम में 13 अक्टूबर, 2010 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करती हैं:--

1. श्री केशव चन्द्र झा
2. डॉ. (श्रीमती) वंदना ग्रोवर डावर
3. सुश्री करुणा पुर्ती
4. श्रीमती अंजू मीणा

2. वे सहायक संपादक के ग्रेड में 13.10.2010 से 12.10.2012 तक की दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ.1370-आर(3)/जीएन-6491/एएन-1/2010--अध्यक्ष महोदया, 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 5,400/- रुपये के वेतन बैंड में कार्यरत निम्नलिखित सहायक संपादकों को 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के वेतन बैंड में संपादक के ग्रेड में, नीचे दर्शाए गए क्रम में, 13 अक्टूबर, 2010 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करती हैं:--

1. श्री बलवान सिंह
2. श्री बसंत बी. भट्ट
3. श्री मुरलीधर झा

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ.1368-आर(3)/जीएन-6492/एएन-1/2010--अध्यक्ष महोदया, 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 5,400/- रुपये के वेतन बैंड में कार्यरत सहायक संपादक, श्री राकेश सी. हांडू, जिन्हें दिनांक 15 जुलाई, 2008 की अधिसूचना सं. 1368-आर(3)/जीएन-6076/एएन-1/2008 के द्वारा तदर्थ आधार पर संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था, को 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के वेतन बैंड में संपादक के ग्रेड में नियमित आधार पर, 13 अक्टूबर, 2010 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करती हैं।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ.1369-आर(3)/जीएन-6493/एएन-1/2010--अध्यक्ष महोदया, 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 5,400/- रुपये के वेतन बैंड में कार्यरत सहायक संपादक, श्री अशोक कुमार जायसवाल, जिन्हें दिनांक 15 जुलाई, 2008 की अधिसूचना सं. 1368-आर(3)/जीएन-6076/एएन-1/2008 के द्वारा तदर्थ आधार

पर संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था, को 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के वेतन बैंड में संपादक के ग्रेड में नियमित आधार पर, 13 अक्टूबर, 2010 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करती हैं।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

दिनांक 20 अक्टूबर 2010

सं. पी.एफ.151-आर(3)/जीएन-6494/एएन-1/2010--ऋण वसूली अधिकरण-1, चेन्नै में सचिव/रजिस्ट्रार के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर चयन होने के परिणामस्वरूप, श्री एम. एल. के. राजा उप सचिव को 20 अक्टूबर, 2010 के अपराह्न से इस सचिवालय में उनकी सेवाओं से मुक्त किया जाता है और तत्पश्चात् उनकी सेवाएं ऋण वसूली अधिकरण-1, चेन्नै में 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600/- रुपये के वेतन बैंड में सचिव/रजिस्ट्रार के रूप में प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 20 अक्टूबर, 2011 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को सौंपी जाती हैं।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

दिनांक 21 अक्टूबर 2010

सं. पी.एफ.105-आर(3)/जीएन-6495/एएन-1/2010--अध्यक्ष महोदया, 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600/- रुपये के वेतन बैंड में कार्यरत निम्नलिखित उप सचिवों को 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 8,000/- रुपये के वेतन बैंड में 19 अक्टूबर, 2010 से सावधिक वेतनमान पदोन्नति सहर्ष प्रदान करती हैं :--

1. श्री ए. के. श्रीवास्तव
2. श्री जय कुमार टी.
3. श्री टी. एस. रंगराजन
4. श्री हुलासी राम
5. श्री हरीश चन्द्र-II
6. श्री श्रीनिवासुलू गुंडा
7. श्री राजेश रंजन कुमार
8. श्री राजू श्रीवास्तव
9. श्री संजीव शर्मा
10. श्री पी. सी. चौलडा
11. श्रीमती ममता केमवाल
12. श्री कुशल सरकार

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

सं. पी.एफ.210-आर(3)/जीएन-6496/एएन-1/2010--अध्यक्ष महोदया, 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 5,400/- रुपये के वेतन बैंड में कार्यरत निम्नलिखित कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटेक्टॉल अधिकारियों को 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के वेतन बैंड में 19 अक्टूबर, 2010 से सावधिक वेतनमान पदोन्नति सहर्ष प्रदान करती हैं :--

1. श्री एम. डी. टुटेजा
2. श्रीमती मीनाक्षी आर.
3. श्रीमती सविता शर्मा
4. श्रीमती उषा गुप्ता
5. श्री विनय प्रदीप बरवा
6. श्री सोना
7. श्री बी. के. सेलोन
8. श्री ए. शिवनंदम
9. श्री कविराज
10. श्री अशोक कुमार शर्मा
11. श्रीमती के. रंगमणि नरसिंह
12. श्री हरपाल सिंह
13. सुश्री मिरांडा इंगुदम
14. श्री राजेन्द्र सिंह यादव
15. श्रीमती कलावती गोला
16. श्री लक्ष्मीकांत सिंह सोरूगैजम
17. श्री अजीत कुमार यादव
18. श्री शिव नंद
19. श्री रमेश चंद वधवा
20. श्री टीकाराम नौरियाल
21. श्रीमती मधु भूटानी
22. श्री कृष्ण सी. पांडेय
23. श्री बी. डी. ध्यानी
24. श्री बी. गणपति
25. श्री अरुण कुमार
26. श्रीमती अंजू कुकरेजा
27. श्रीमती एल. नेमजलहिंग हौकिप
28. श्री श्रीपाल
29. श्री रमेश चन्द अहेरिया

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

सं. एफ-15/07/जीएन-6497/एएन-1/2010--अध्यक्ष महोदया, दिनांक 01 नवम्बर 2009 को हुई प्रारम्भिक परीक्षा और 16/17 जनवरी, 2010 को हुई आशुलिपिक परीक्षा तथा 20 फरवरी 2010 को हुए वैयक्तिक साक्षात्कार के आधार पर श्री इज्जु सुमंत का लोक सभा सचिवालय में संसदीय रिपोर्टर ग्रेड-II के पद पर चयन होने के परिणामस्वरूप, उन्हें 15,600--39,100 रुपये (पीबी-3)+ग्रेड पे 5,400 रुपये के वेतन बैंड में संसदीय रिपोर्टर ग्रेड-II के ग्रेड में, स्थानापन्न रूप में, 30 सितम्बर, 2010 के पूर्वाह्न से, अगले आदेशों तक, सहर्ष नियुक्त करती हैं।

2. वह 30 सितम्बर, 2010 से 29 सितम्बर, 2012 तक की दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

3. संसदीय रिपोर्टर ग्रेड-II के ग्रेड में उनकी परस्पर-वरिष्ठता 20 दिसम्बर, 2003 के आरएंडसी. एस. आदेश सं. पीडीए-1076/2003 के निबंधनों के अनुसार विनियमित होगी।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

सं. पीएफ-13-आर(3)/जीएन-6498/एएन-1/2010--श्री ए. मुखोपाध्याय, (आई ए एंड ए एस: 1980), जो वर्तमान में संयुक्त सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्यरत हैं, को 06 अक्टूबर, 2010 से 12 नवम्बर, 2010 तक अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा 13 और 14 नवम्बर, 2010 को क्रमशः शनिवार और रविवार होने के कारण अंत में जोड़ने की अनुमति दी जाती है। अवकाश की पूर्वाक्त अवधि की समाप्ति पर श्री ए. मुखोपाध्याय को 15 नवम्बर, 2010 के पूर्वाह्न से इस सचिवालय में उनकी सेवाओं से मुक्त किया जाता है और तत्पश्चात् उनकी सेवाएं उनके मूल विभाग अर्थात् भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक, नई दिल्ली को वापस सौंपी जाती हैं।

2. श्री ए. मुखोपाध्याय की लोक सभा सचिवालय में वर्तमान प्रतिनियुक्ति अवधि 28 नवम्बर 2010 से कम करके 14 नवम्बर 2010 तक मानी जाएगी।

पी. के. ग्रोवर, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 25 अक्टूबर 2010

सं. पीएफ-1177-आर(3)/जीएन-6499/एएन-1/2010--अध्यक्ष महोदया, 15,600--39,100 रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600 रुपये के वेतन बैंड में कार्यरत निम्नलिखित संयुक्त निदेशकों (भाषांतरण) को 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3)+ग्रेड पे 8,000 रुपये के वेतन बैंड में 23 अक्टूबर, 2010 से सावधिक वेतनमान पदोन्नति सहर्ष प्रदान करती हैं:--

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा
2. श्री चन्द्र मोहन
3. श्री रमेश कुमार यादव
4. श्री अतुल आनंद

5. श्री दशबंता सैमॉम
6. सुश्री शिवा मोगा

यू. बी. एस. नेगी, निदेशक

सं. पीएफ-1191-आर(3)/जीएन-6500/एएन-1/2010--अध्यक्ष महोदया, 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3)+ ग्रेड पे 5,400/- रुपये के वेतन बैंड में कार्यरत निम्नलिखित संसदीय भाषांतरकारों ग्रेड-II को 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के वेतन बैंड में 23 अक्टूबर, 2010 से सावधिक वेतनमान पदोन्नति सहर्ष प्रदान करती हैं:--

1. सुश्री प्रीतिश्री मोहंती
2. श्री मोहन परसाई
3. श्री रामकृष्ण शर्मा
4. श्री के. एन. वीजू
5. श्री आई. ए. वी. एन. एस. मूर्ति

यू. बी. एस. नेगी, निदेशक

सं. पीएफ-1521-आर(3)/जीएन-6501/एएन-1/2010--अध्यक्ष महोदया, 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3)+ ग्रेड पे 5,400/- रुपये के वेतन बैंड में कार्यरत निम्नलिखित सुरक्षा अधिकारियों को 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600 रुपये के वेतन बैंड में 23 अक्टूबर, 2010 से सावधिक वेतनमान पदोन्नति सहर्ष प्रदान करती हैं:--

1. श्री अभय कुमार
2. श्री रिजॉल करीम पूर्णवी
3. श्री भगवती प्रसाद रतूड़ी
4. श्रीमती दीपिका भल्ला
5. श्री एस. एस. सांगवान

यू. बी. एस. नेगी, निदेशक

सं. पीएफ-778-आर(3)/जीएन-6502/एएन-1/2010--अध्यक्ष महोदया, 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 7,600/- रुपये के वेतन बैंड में कार्यरत निम्नलिखित संयुक्त निदेशकों (लार्डिस) को 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3)+ ग्रेड पे 8,000/- रुपये के वेतन बैंड में 23 अक्टूबर, 2010 से सावधिक वेतनमान पदोन्नति सहर्ष प्रदान करती हैं:--

1. श्रीमती मंजू शर्मा
2. कुमारी समिता भौमिक
3. डॉ. बी. सी. जोशी

4. डॉ. पी. जे. एंटनी
5. श्री पुलिन बी. भूटिया
6. श्री हर्ष चतुर्वेदी
7. श्रीमती सुषमा रूंगटा
8. श्री प्रदोष पंडा
9. डॉ. जयदेव साहू
10. श्री बी. फणी कुमार
11. श्रीमती नीलम सेठी
12. श्री आर. के. ठाकुर
13. श्रीमती परमा चटर्जी
14. श्रीमती सुनंदा दास मोहंती
15. श्रीमती सुनीता भल्ला
16. श्री जी. गंगा राव

यू. बी. एस. नेगी, निदेशक

सं. पीएफ-823-आर(3)/जीएन-6503/एएन-I/2010--अध्यक्ष महोदया, 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 5,400/- रुपये के वेतन बैंड में कार्यरत निम्नलिखित शोध/संदर्भ अधिकारियों को 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के वेतन बैंड में 23 अक्टूबर, 2010 से सावधिक वेतनमान पदोन्नति सहर्ष प्रदान करती हैं:--

1. सुश्री मधु शर्मा
2. श्रीमती प्रमिला पंत
3. श्रीमती बेला राउत
4. श्रीमती निर्मला शर्मा
5. श्रीमती कुसुम रावत
6. श्रीमती रश्मि कपूर
7. श्रीमती लता बंसल
8. श्री गुरनाम सिंह
9. श्री बी. डी. शर्मा
10. श्री नरेश अरोड़ा
11. श्री दलीप सिंह
12. डॉ. अमर कुमार प्रुस्ती

यू. बी. एस. नेगी, निदेशक

सं. पीएफ-1373-आर(3)/जीएन-6504/एएन-I/2010--अध्यक्ष महोदया, 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 5,400/- रुपये के वेतन बैंड में कार्यरत निम्नलिखित सहायक सम्पादकों को 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के वेतन बैंड में 23 अक्टूबर, 2010 से सावधिक वेतनमान पदोन्नति सहर्ष प्रदान करती हैं:--

1. श्रीमती निशा शर्मा
2. श्री जय मुकेश शुक्ला
3. श्री राजकुमार
4. श्री बिशन कुमार
5. श्री धर्म सिंह
6. श्री अमर सिंह
7. श्री महेन्द्र सिंह
8. श्री बसंत प्रसाद
9. श्री रविन्द्र कुमार मैड़
10. सुश्री परमजीत कौर
11. श्रीमती सुनीता उपाध्याय
12. श्री नारद प्रसाद किमोटी
13. श्री शिवाजी श्रीवास्तव
14. श्रीमती रोहिणी शर्मा
15. श्री भूषण कुमार
16. श्री उदय शरण
17. श्री नलिन कुमार
18. श्री श्रीविलाय पांडेय
19. श्रीमती इन्दु बक्शी
20. श्री सुरेश कुमार सुनेजा
21. श्री शैलेश कुमार
22. श्री शिव कुमार
23. श्रीमती पल्लवी सिंह
24. श्री संजय कुमार सिंह
25. श्री राजिन्दर कुमार
26. श्रीमती कीर्ति यादव
27. श्रीमती सुनीता अरोड़ा
28. श्रीमती सुनीता थपलियाल
29. श्री मनोज कुमार पंकज

30. श्री वीरेन्द्र सिंह रावत
31. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा
32. श्रीमती रेनुबाला सूदन
33. श्री योगेन्द्र कुमार
34. श्री हर सिंह
35. श्री संजय कुमार चौधरी
36. श्री विजय आनंद शर्मा
37. श्रीमती सरिता सहारे
38. श्री ब्रजेश कुमार
39. श्री मो. मोतसिम

यू. बी. एस. नेगी, निदेशक

सं. पीएफ-1211-आर(3)/जीएन-6505/एएन-1/2010--अध्यक्ष महोदया, 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 5,400/- रुपये के वेतन बैंड में कार्यरत निम्नलिखित मुद्रण प्रबंधकों को 15,600--39,100/- रुपये (पीबी-3) + ग्रेड पे 6,600/- रुपये के वेतन बैंड में 23 अक्टूबर, 2010 से सावधिक वेतनमान पदोन्नति सहर्ष प्रदान करती हैं:--

1. श्री शुभेन्दु सेठ
2. श्री जग भूषण वर्मा
3. श्री नंद किशोर ध्यानी
4. श्री सतीश चंद्र

यू. बी. एस. नेगी, निदेशक

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 22 नवम्बर 2010

सं. ए.-12025/27/2002-प्रशा.-1--योजना आयोग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18 नवम्बर, 2009 को अधिकांश करते हुए राष्ट्रपति, डॉ. विश्वजीत बनर्जी, आईएफएस (उ.प्र.:91) को पीबी-4 में वेतनमान रुपये 37,400-67,000/- + 8,700/- (ग्रेड पे) तथा रुपये 1,000/- प्र. म. सीडीटीए के तौर पर, में पाँच वर्ष की अवधि लिए केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के आधार पर दिनांक 16 नवम्बर 2009 से 15 नवम्बर 2014 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, योजना आयोग में निदेशक (वानिकी) के पद पर नियुक्त करते हैं।

जी. राजीव, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 नवम्बर 2010

सं. ए.-32012/1/2009-प्रशा.-I(वि.वि.)--विभागीय प्रोन्नति समिति की संस्तुति पर राष्ट्रपति, सहर्ष विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग

के राजभाषा खण्ड में सहायक विधायी परामर्शी (हिंदी) के पद पर कार्यरत सुश्री उपमा माथुर को विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड में वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- तथा ग्रेड वेतन रु. 7,600/- में 18 नवम्बर, 2010 के अपराह्न से और अगले आदेशों तक नियमित आधार पर उप विधायी परामर्शी (हिंदी) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम. आर. बीर, उप सचिव

दिनांक 26 नवम्बर 2010

सं. ए.-32015/1/2009-प्रशा.-I(वि.वि.)--राष्ट्रपति, सहर्ष विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड में वरिष्ठ मुद्रण सहायक के पद पर कार्यरत श्री अशोक कुमार भार्गव को विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के उक्त खण्ड में रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड तथा रु. 4,600/- के ग्रेड वेतन में 26 नवम्बर, 2010 की पूर्वाह्न से 6 माह की अवधि के लिए तदर्थ आधार पर और अगले आदेशों तक अधीक्षक (मुद्रण) के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति श्री अशोक कुमार भार्गव को, अधीक्षक (मुद्रण) के ग्रेड में न तो नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा करने का अधिकार प्रदान करेगी और न ही उनके द्वारा प्रदत्त तदर्थ सेवाओं की गणना इस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी प्रोन्नति के लिए की जाएगी।

एम. आर. बीर, उप सचिव

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 23 नवम्बर 2010

सं. ए.-45012/1/2009-प्रशा.-III(वि.का.)--केन्द्रीय सरकार, श्री नरसिंह मिश्र को दिनांक 03 नवम्बर, 2010 के पूर्वाह्न से दिनांक 31 अगस्त, 2012 तक की अवधि के लिए अर्थात् भारत के 19वें विधि आयोग के कार्यकाल की समाप्ति तक भारत के 19वें विधि आयोग के अंशकालिक सदस्य के पद पर नियुक्त करती है।

एम. ए. ख़ाँ यूसुफी, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 नवम्बर 2010

सं. आई-14013/46/2010-आईपीएस-I--श्री अरूण के. कम्पानी का नाम वर्ष 2007 की चयन सूची में सम्मिलित किए जाने एवं माननीय केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण, प्रिंसिपल सचिव, नई दिल्ली के ओ.ए. सं. 1292/2010 में पारित दिनांक 28 अक्टूबर 2010 के आदेश के आलोक में जिसमें माननीय न्यायालय ने अधिकारी की वर्ष 2007 की चयन सूची से नियुक्ति के आदेश किए हैं, राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के

विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली-अंडमान-निकोबार पुलिस सेवा के सदस्य श्री अरूण के. कम्पानी (जन्म तिथि 15 जनवरी 1959) को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत संयुक्त ए.जी. एम.यू. संवर्ग प्रदान करते हैं।

2. यह नियुक्ति अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 29 नवम्बर 2010

सं. 14034/27/2007-रा. भा. (प्रशि.)--सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री शिवपाल सिंह नेगी की प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 12 जून 2010 से 11 दिसम्बर 2010 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाई जाती है।

विजय कुमार गुप्ता, अवर सचिव

संसदीय राजभाषा समिति

नई दिल्ली-110011, दिनांक 23 नवम्बर 2010

सं. ए-20012/5/2010-समिति-6--राष्ट्रपति जी, हिन्दी शिक्षण योजना नागपुर के हिन्दी प्राध्यापक, श्री प्रदीप कुमार शर्मा को दिनांक 01 सितम्बर 2010 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक संसदीय राजभाषा समिति सचिवालय में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद पर, पीबी-3 रुपये 15,600--39,100/- ग्रेड पे रुपये 6,600/- के वेतनमान पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एल. आर. यादव, अवर सचिव (प्रशासन)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 नवम्बर 2010

सं. ए-32013/2/2009-प्रशा. I--राष्ट्रपति, श्रीमती अल्का सिरोही, आई.ए.एस. (मध्य प्रदेश : 74) को दिनांक 1 नवम्बर 2010 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय) में सचिव नियुक्त करती है।

प्रिया महादेवन, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 नवम्बर 2010

सं. 22/पीए-II/2010--श्री नव रतन सिंह, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31 अक्टूबर, 2010 को अपराह्न में भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

आलोक रंजन झा, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 नवम्बर 2010

भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्थापनाएं

सं. 45/2010 (फा. सं. ए-32012/24/2009-प्रशा. II)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में आई. आर. एस. (सी. एंड. सी. ई.) श्री एन. मुथुचिदम्बरम को दिनांक 19.01.2010 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए तदर्थ आधार पर 8,700/- रु. के ग्रेड पे के साथ पे-बैंड-4 में गैर कार्यात्मक चयन ग्रेड (एन. एफ. एस. जी.)-[14,300--18,300 रु. के संशोधन पूर्व वेतनमान के अनुरूप] प्रदान करते हैं।

आर. सानेहवाल, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 12 नवम्बर 2010

सं. 108 : (फा. सं. ए. 19012/16/2010-प्रशा. 1)--वर्ष 2010 की केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी एस एस) के सिलेक्शन ग्रेड (उप सचिव) की चयन सूची में उनका नाम शामिल करने के परिणामस्वरूप तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 4 नवम्बर, 2010 के कार्यालय आदेश सं. 4/2/2010-सी एस-आई (डी) के अनुसरण में राष्ट्रपति, श्री कृष्ण कुमार खट्टर को दिनांक 08.11.2010 (पूर्वाह्न) से या अगले आदेशों तक नियमित आधार पर इस विभाग में उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 24 नवम्बर 2010

सं. ए-19011/7/2009-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में अवर सचिव, सुश्री मोनिका धामी, भा.रा.से. (आईटी : 2001), को 10 नवम्बर, 2010 के पूर्वाह्न से उनके कार्यकाल की शेष अवधि के लिए अर्थात् 03.06.2013 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इसी विभाग में उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

अशोक कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 26 नवम्बर 2010

सं. 13028/05/2009/पीएफ-आईईएस--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस : 2009 बैच) के अधिकारी श्री शैलेश नवल का संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई सिविल सेवा परीक्षा, 2009 के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएस) में चयन हो जाने के परिणामस्वरूप 27 अगस्त, 2010 (अपराह्न) से तकनीकी त्यागपत्र स्वीकार करते हैं।

तदनुसार, आईईएस संवर्ग की नामावली से उनका नाम हटा दिया गया है।

उर्मिला रावत, अवर सचिव

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 नवंबर 2010

सं. ए-45011/3/2010-ई. I--औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के का.ज्ञा. सं. 6/6/2009-सी.एस.-I (एस) दिनांक 30.08.2010 के अनुसरण में 1998 की चयन सूची (सामान्य), 1999 की चयन सूची (अनुसूचित जाति श्रेणी) और 2001 की चयन सूची (अनुसूचित जनजाति श्रेणी) से संबंधित औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित नियमित सहायकों को उनमें से प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीख से 31.12.2010 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, इस विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में पूर्णतः तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में पदोन्नत किया जाता है:--

क्र. सं.	एससीएलएल सं. एवं चयन वर्ष	नाम	नियुक्ति की तारीख	तैनाती का स्थान
1.	9/1997	श्रीमती परविन्दर कौर चंडौक	29.09.2010	औ.नी. और से. वि.
2.	35/1997	श्री बी. बी. सक्सेना	29.09.2010	आर्थिक सलाह-कार का कार्यालय
3.	61/1997	श्री अमित श्रीवास्तव	01.10.2010	औ.नी. और से. वि.
4.	120/1997	श्रीमती अनीता आंबेराय	01.10.2010	भारी उद्योग विभाग
5.	122/1997	श्रीमती मनोरमा कौल	01.10.2010	भारी उद्योग विभाग
6.	126/1997	श्री एस. सी. भरद्वाज	29.09.2010	औ.नी. और से. वि.
7.	1998	श्रीमती असिफा समीन	01.10.2010	भारी उद्योग विभाग

उपर्युक्त नियुक्तियां पूर्णतः तदर्थ आधार पर की गई हैं और इनसे संबंधित अधिकारी को अनिश्चितकाल तक उस पद पर बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता, आदि का दावा करने का अधिकार नहीं होगा। तदर्थ नियुक्ति तब तक जारी रहेगी, जब तक वरिष्ठता कोटा या सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के जरिये अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियमित उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो जाते। यदि तदर्थ नियुक्ति वाले अधिकारी इन दोनों श्रेणियों में से किसी में भी नियमित नियुक्ति की योग्यता प्राप्त नहीं करते, तो उन्हें ऐसे नियमित अधिकारी उपलब्ध होने पर उस तारीख से सहायक के ग्रेड में पदावनत कर दिया जाएगा जिस तारीख से नियमित अनुभाग अधिकारी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा उन्हें आवंटित संबंधित संवर्ग में कार्य ग्रहण कर लेंगे।

पी. भारद्वाज, अवर सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितंबर 2010

सं. 2 (23)/2009-स्थापना--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 03 सितंबर, 2010 के आदेश संख्या-05/03/2010-सीएस-I (यू) के अनुसरण में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में सीएसएस के अनुभाग अधिकारी श्री के.बालन नायर को 16 सितंबर, 2010 (पूर्वाह्न) से इस्पात मंत्रालय के सीएसएस संवर्ग में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

तदर्थ नियुक्ति निम्न शर्तों पर आधारित होगी--

- इस नियुक्ति पर इन्हें अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
- तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त की जा सकती है।
- तदर्थ प्रौन्नति कैट, नई दिल्ली में लंबित श्री पी. आर. शर्मा बनाम संघ सरकार के ओ. ए. संख्या-3294/2009 एवं श्री पी. एस. भंडारी बनाम संघ सरकार तथा अन्य के ओ. ए. संख्या-2674/2009 के अंतिम निष्कर्षों के अध्यधीन होगी।

जी. वैधीश्वरण, अवर सचिव

सं. 2 (23)/2009-स्थापना--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 03 सितंबर, 2010 के आदेश संख्या-05/03/2010-सीएस-I (यू) के अनुसरण में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सीएसएस के अनुभाग अधिकारी श्री सी.ए. जोसफ को 10 सितंबर, 2010 (अपराह्न) से इस्पात मंत्रालय के सीएसएस संवर्ग में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

तदर्थ नियुक्ति निम्न शर्तों पर आधारित होगी--

- इस नियुक्ति पर इन्हें अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
- तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त की जा सकती है।
- तदर्थ प्रौन्नति कैट, नई दिल्ली में लंबित श्री पी. आर. शर्मा बनाम संघ सरकार के ओ. ए. संख्या-3294/2009 एवं श्री पी. एस. भंडारी बनाम संघ सरकार तथा अन्य के ओ. ए. संख्या-2674/2009 के अंतिम निष्कर्षों के अध्यधीन होगी।

जी. वैधीश्वरण, अवर सचिव

दिनांक 1 अक्टूबर 2010

सं. 2 (9)/2010-स्थापना--राष्ट्रपति, इस्पात मंत्रालय के सीएसएस कैडर के सहायक, श्री दीपक कुमार को इस्पात मंत्रालय के सीएसएस कैडर में अनुभाग अधिकारी के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं। उनकी यह नियुक्ति दिनांक 01.10.2010 (पूर्वाह्न) से दिनांक 31.12.2010 तक अथवा आगामी आदेश होने, इनमें से जो भी पहले हो, तक की जाती है।

तदर्थ नियुक्ति निम्न शर्तों पर आधारित होगी--

इस नियुक्ति पर इन्हें अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित पदोन्नति हेतु चयन सूची में शामिल होने अथवा केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा, तथा

तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त की जा सकती है।

जी. वैधीश्वरन, अवर सचिव

सं. 2 (9)/2010-स्थापना--राष्ट्रपति, इस्पात मंत्रालय के सीएसएस कैडर के सहायक, श्री राजेश कुमार को इस्पात मंत्रालय के सीएसएस कैडर में अनुभाग अधिकारी के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं। उनकी यह नियुक्ति दिनांक 01.10.2010 (पूर्वाह्न) से दिनांक 31.12.2010 तक अथवा आगामी आदेश होने, इनमें से जो भी पहले हो, तक की जाती है।

तदर्थ नियुक्ति निम्न शर्तों पर आधारित होगी--

इस नियुक्ति पर इन्हें अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित पदोन्नति हेतु चयन सूची में शामिल होने अथवा केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा, तथा

तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त की जा सकती है।

जी. वैधीश्वरन, अवर सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 नवम्बर 2010

सं. ए/32014/1/2005-प्रशासन/स्थापना--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के 30 अगस्त, 2010 के का. ज्ञा. सं. 6/5/2010-सी.एस.-I (एस) के अनुसरण में तथा इसमें उल्लिखित नियम एवं शर्तों के अधीन, राष्ट्रपति कोयला मंत्रालय के संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों को कोयला मंत्रालय के सीएसएस संवर्ग के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड वेतन 4,800/- रु. के साथ वेतन संरचना पी बी-2, 9,300--34,800/- रु. में अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख

से 31 दिसम्बर, 2010 तक अथवा नियमित अनुभाग अधिकारियों के उपलब्ध होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं:-

1. श्री राजकुमार भट्ट

2. श्री वी. डी. वशिष्ठ

2. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्ण रूप से तदर्थ आधार पर की जा रही है तथा इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने अथवा सीएसएस के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं होगा। सरकार को किसी भी समय उपर्युक्त तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए समाप्त करने का अधिकार है।

एच. सी. अग्रवाल, निदेशक

सं. ए/32014/1/2005-प्रशासन/स्थापना--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के 30 अगस्त, 2010 के का. ज्ञा. सं. 6/5/2010-सी.एस.-I (एस) के अनुसरण में तथा इसमें उल्लिखित नियम एवं शर्तों के अधीन, राष्ट्रपति कोयला मंत्रालय के संवर्ग के सहायक, श्री एन. सी. कश्यप को कोयला मंत्रालय के सीएसएस संवर्ग के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड वेतन 4,800/- रु. के साथ वेतन संरचना पी बी-2, 9,300--34,800/- रु. में 1 दिसम्बर को अथवा इसके पश्चात अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 31 दिसम्बर, 2010 तक अथवा नियमित अनुभाग अधिकारी के उपलब्ध होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्ण रूप से तदर्थ आधार पर की जा रही है तथा इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने अथवा सीएसएस के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं होगा। सरकार को किसी भी समय उपर्युक्त तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए समाप्त करने का अधिकार है।

एच. सी. अग्रवाल, निदेशक

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 नवम्बर 2010

सं. ए-12011/8/2006-स्था.--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के दिनांक 10 नवम्बर, 2010 के उनके पत्र संख्या एफ-1/36(11)/2010-एपी.1 के तहत सिफारिशों के अनुसरण में उपभोक्ता मामले विभाग में निम्नलिखित नियमित विधिक माप विज्ञान सहायकों एवं स्थानापन्न सहायक निदेशकों (विधिक माप विज्ञान) को उनकी वरिष्ठता के क्रम में 10 नवम्बर, 2010 से 15,600--39,100/- (पीबी-3) के वेतन बैंड

और 5,400/- रुपये के ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) के पद पर पदोन्नत करते हैं :--

क्रम सं.	नाम
1.	श्री अंशुल सिंह
2.	श्री आशुतोष अग्रवाल
3.	श्री राकेश जोशी
4.	श्री चन्द्र शेखर शर्मा
5.	श्री मनोज कुमार नायक

प्रेमा भट्ट, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 26 नवम्बर, 2010

सं. ए-32013/4/2009-रा.प्रो.शा.--राष्ट्रपति जी, श्रीमती वी.के. तेली की सहायक निदेशक (प्रशासनिक) ग्रेड-1 के पद पर नियमित रूप से दिनांक 31 मार्च 2010 पूर्वाह्न से राष्ट्रीय परीक्षणशाला में 15,600--39,100/- + 5,400/- रुपये के वेतनमान में पदोन्नति करते हैं।

केवल कृष्ण, अवर सचिव

दिनांक 30 नवम्बर 2010

सं. ए-32013/2/2009-रा.प्रो.शा. (स्था) राष्ट्रपति जी, राष्ट्रीय परीक्षणशाला में फ्लेक्सिबल कम्प्लेमेंटिंग स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित वैज्ञानिक एस.बी. को वैज्ञानिक एस.सी (रसायन) के पद पर 15,600--39,100/- + 6,600/- रुपये के वेतनमान में स्वस्थाने आधार पर उनके सम्मुख दर्शायी गई तारीख से नियुक्त करते हैं:--

क्रम सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	डा. एस. बी. कुसारे	29.11.2010 (पूर्वाह्न)
2.	श्री समीर मुखर्जी	15.11.2010 (पूर्वाह्न)
3.	डा. एस. के. एस. यादव	15.11.2010 (पूर्वाह्न)
4.	श्री मणीशंकर भितरा	16.11.2010 (पूर्वाह्न)

केवल कृष्ण, अवर सचिव

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 15 नवम्बर 2010

सं. ए-12023/4/95-स्था.1--राष्ट्रपति, श्री भूषण चन्द्र गुप्ता, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पीबी-75) को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में 15 नवम्बर 2010 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं।

अरूण कुमार सिंह, अवर सचिव

दिनांक 22 नवम्बर, 2010

सं. ए-38012/7/2010-स्था.1--खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप सचिव श्री एम. एस. सेठी अधिवर्षिता की आयु होने पर 30 नवम्बर 2010 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

अरूण कुमार सिंह, अवर सचिव

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

(प्रधान लेखा कार्यालय)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 नवम्बर 2010

सं. प्र.ले.का/पृविमं/प्रशा./टी.पीय/2010-11--राष्ट्रपति, श्रीमती के. डी. थिप्से, भुगतान एवं लेखा अधिकारी को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31 अक्टूबर 2010 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सहर्ष सेवानिवृत्त करते हैं।

जगदीश प्रसाद, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशासन)

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 सितम्बर 2010

सं. 6-3/2008-एफई (वाल्सूम-I)--राष्ट्रपति, निम्नलिखित वरिष्ठ तकनीकी सहायकों को 01.09.2010 से 8,000--13,500/- रु. (वर्ग 'क'--पूर्व संशोधित) वेतनमान में भारतीय वन सर्वेक्षण में सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	नाम
	सर्वश्री
1.	एस. के. पीपरा
2.	बी. वी. एस. चौहान
3.	जी. एस. रावत (एसटी)
4.	सुनील चन्द्र

2. उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इलाहाबाद बैंच में ओ.ए. संख्या 548/2003 (श्री नौटियाल तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य) के परिणाम के अध्वधीन होगा।

मालती रावत, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-11, दिनांक 25 नवम्बर 2010

सं. ए-35014/01/2010-सीएचएस-V--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. (श्रीमती) बीना चेरियन, चिकित्सा अधिकारी, चेन्नै निगम को 15.03.2010 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग में

15,600--39,100/- + 5,400/- रुपये ग्रेड वेतन के वेतनमान में चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

पवन कुमार, अवर सचिव

सं. ए-35014/03/2010-सीएचएस-V--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. (श्रीमती) अर्चना वानखेड़े, चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार को 29.03.2010 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग में 15,600--39,100/- + 5,400/- रुपये ग्रेड वेतन के वेतनमान में चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

पवन कुमार, अवर सचिव

सं. ए-35014/02/2010-सीएचएस-V--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. (श्रीमती) प्रीति दत्त चिकित्सा अधिकारी, बिहार सरकार को 11.03.2010 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग में 15,600--39,100/- रु. + 5,400/- रु. ग्रेड वेतन के वेतनमान में चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

पवन कुमार, अवर सचिव

सं. ए-35014/09/2010-सीएचएस-V--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. (श्रीमती) हीराबती नाइक विशेषज्ञ ग्रेड-I, त्वचा विज्ञान, पंजाब सरकार को 17.03.2010 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर उप-संवर्ग में 37,400--67,000/- रु. + 8,700/- रु. ग्रेड वेतन के वेतनमान में विशेषज्ञ ग्रेड-I, त्वचा विज्ञान के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

पवन कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 नवम्बर 2010

सं. ए-38012/04/2009-प्रशा.-I--स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में कार्यरत श्री विजय कुमार खन्ना, सहायक निदेशक, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, दिनांक 03.08.2010 (पूर्वाह्न) को स्वेच्छा से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त हो गए हैं।

आर. के. कालड़ा, उप निदेशक प्रशासन

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 सितम्बर 2010

सं. 4-19/2010-प्रशा.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 अगस्त, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4-2/2010-सी.एस.-I (डी) के अनुसार,

वर्ष 2010 (पार्ट) के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) सूची में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के एक नियमित ग्रेड-I (अवर सचिव) अधिकारी श्री प्रदीप कपूर का नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति उन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में दिनांक 01.09.2010 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप सचिव के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

नवीन यादव, अवर सचिव

दिनांक 29 सितम्बर 2010

सं. 5-9/2010-प्रशा.--इस मंत्रालय के दिनांक 16 सितम्बर, 2010 के समसंख्यक कार्यालय आदेश के अनुसार राष्ट्रपति, मंत्रालय में कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय सेवा की नियमित सहायक, श्रीमती सरोजिनी भट्ट को दिनांक 24 सितम्बर, 2010 के पूर्वाह्न से पूर्णरूपेण अस्थाई और तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

यह पदोन्नति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 अगस्त, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/5/2010-सी.एस.-I (एस) के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अध्याधीन है।

नवीन यादव, अवर सचिव

दिनांक 26 अक्टूबर 2010

सं. 5-1/2008-प्रशा.--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के नियमित अनुभाग अधिकारी श्री अंशु मौलि कुमार को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में दिनांक 01.10.2010 के पूर्वाह्न से अर्थात् अवर सचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तदर्थ आधार पर ग्रेड-I में अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. यह नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 03 सितम्बर, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5-3/2010-सी.एस.-I (यू) के अंतर्गत निर्धारित संगत शर्तों के अध्याधीन है।

नवीन यादव, अवर सचिव

सं. 4-32/2006-प्रशा.--महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत श्रीमती प्रेम मित्तल अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप दिनांक 31.10.2010 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगी।

नवीन यादव, अवर सचिव

दिनांक 10 नवम्बर 2010

सं. 5-9/2010-प्रशा.--इस मंत्रालय के दिनांक 01 नवम्बर, 2010 के समसंख्यक कार्यालय आदेश के अनुसार राष्ट्रपति, इस मंत्रालय में कार्यरत सी.एस.एस. की स्थाई सहायक श्रीमती नीलम नय्यर को दिनांक

01 नवम्बर, 2010 की पूर्वाह्न से पूर्णतः, अस्थाई और तदर्थ आधार पर सी.एस.एस. के अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

उपरोक्त पदोन्नति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 अगस्त, 2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/5/2010-सी.एस.आई. (एस) में वर्णित शर्तों के अध्याधीन होगी।

नवीन यादव, अवर सचिव

दिनांक 15 नवम्बर 2010

सं. 3-2/2006-प्रशा.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 06 अक्टूबर, 2010 के आदेश सं. 4-10/2010-ई.ओ.-(एम.एम.-I) के अनुसार राष्ट्रपति, सुश्री रूपा दत्ता, आई.ई.एस. (1986) को दिनांक 27.10.2010 के पूर्वाह्न से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में 5 वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक जो भी पहले हो निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

नवीन यादव, अवर सचिव

दिनांक 18 नवम्बर 2010

सं. 4-10/2010-प्रशा.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04 नवम्बर, 2010 के कार्यालय आदेश सं. 4-2/2010-सी.एस.-एक-(डी) के अनुसरण में, श्री एल. टी. त्तुअंगा, निदेशक को रक्षा मंत्रालय में नया कार्यभार संभालने के लिए इस मंत्रालय से दिनांक 18.10.2010 के अपराह्न से कार्यमुक्त किया जाता है।

नवीन यादव, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली-110115, दिनांक 01 नवम्बर 2010

सं. ए-19020/20/2006-स्था.-I--सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में श्री के. के. शर्मा, अनुभाग अधिकारी, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31 अक्टूबर, 2010 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 11 नवम्बर 2010

सं. ए-12034/02/2009-स्था.-II--राष्ट्रपति, श्री एम. सुब्रमणियम, जो वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री डी. नेपोलियन) के कार्यालय में सहायक निजी सचिव के रूप में नियुक्त हैं, को राज्य मंत्री (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) के अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में 27.09.2010 के (पूर्वाह्न) से वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/- रुपए) में 6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन के साथ पूर्णतः अस्थायी और मंत्री के कार्यकाल के साथ सह-सत्रावसानी आधार पर या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो नियुक्त करते हैं।

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 25 नवम्बर 2010

सं. ई(जी.पी.)2006/1/36--दिनांक 21.08.2002 की अधिसूचना संख्या ई(जी.पी.)2000/1/56 तथा दिनांक 10.12.2003 की अधिसूचना संख्या ई(जी.पी.)2002/1/56 में आंशिक आशोधन करते हुए सर्वश्री एस. आर. किस्कु (अ.ज.जा.) तथा एस. के. दास (अ.जा.) की भारतीय रेल भंडार सेवा (आई.आर.एस.एस.) के कनिष्ठ वेतनमान में क्रमशः 2001-02 तथा 2002-03 पैन्ल में पूर्वोत्तर रेलवे पर नियुक्ति को रद्द समझा जाए।

तत्पश्चात् राष्ट्रपति महोदया, भारतीय रेलवे के भंडार विभाग के ग्रुप 'बी' अधिकारियों सर्वश्री एस. आर. किस्कु (अ.ज.जा.) तथा एस. के. दास (अ.जा.) की पूर्वोत्तर रेलवे के 2003-04 पैन्ल पर 15.10.2003 से भारतीय रेल भंडार सेवा (आई.आर.एस.एस.) के कनिष्ठ वेतनमान में सहर्ष नियुक्ति करते हैं।

वी. के. गुप्ता, सचिव

(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 26 नवम्बर 2010

सं. ई(ओ)III-2010/आरएन/28--हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में स्थाई समाहन होने के परिणामस्वरूप श्री अमिताभ बैनर्जी, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/भारतीय रेल लेखा सेवा ने 09.09.2010 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

वी. के. गुप्ता, सचिव

(रेलवे बोर्ड)

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 नवम्बर 2010

सं. 24/10 फाईल सं. 2/1/2008-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, 17 नवम्बर, 2010 के पूर्वाह्न से 16 फरवरी, 2011 तक अथवा अगले आदेशों के होने तक, जो भी पहले हो, तीन माह की अवधि के लिए श्री गिरीश बी. प्रधान, आईएएस (महाराष्ट्र : 1977), अतिरिक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय के कार्यकाल को बढ़ाते हैं।

मधुकर सूद, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 नवम्बर 2010

सं. 7/11/2009-सीजीडब्ल्यूबी--राष्ट्रपति, निम्नलिखित कार्यपालक इंजीनियरों को उनके नाम के आगे दी गई तिथि से केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में पदोन्नति करते हुए वेतनमान पीबी-3, 15,600--39,100/- रु. +

ग्रेड वेतन 7,600/- रु. में नियमित आधार पर अधीक्षक इंजीनियर के पद पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. अधिकारियों सं. के नाम	पदोन्नति की तिथि
1. श्री डी. एन. अरुण	07.05.2010 (पूर्वाह्न)
2. श्री के. आर. विश्वास	30.04.2010 (पूर्वाह्न)

विनीत एब्रहाम, अवर सचिव

सं. 7/11/2008-सीजीडब्ल्यूबी--इस मंत्रालय के दिनांक 24 जुलाई, 2009 के समसंख्यक कार्यालय आदेश के अनुसरण में केन्द्रीय भू-जल बोर्ड में पीबी-III, रुपए 15,600--39,100/- + जीपी रु. 5,400/- के वैज्ञानिक-बी ग्रेड के निम्नलिखित अधिकारियों ने लचीली अनुपूरक स्कीम (एफसीएस) के अन्तर्गत स्वस्थाने आधार के रूप में पदोन्नति पर पीबी-III, रु. 15,600--39,100/- + जीपी रु. 6,600/- के वेतन मान में वैज्ञानिक-सी ग्रेड में उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से कार्यभार संभाल लिया है :--

क्र. अधिकारी सं. का नाम	विषयक्षेत्र	वैज्ञानिक 'सी' के रूप में पदभार ग्रहण करने की तिथि
1	2	3
सर्वश्री		
1. ए. के. भार्गव	जल-भूविज्ञानी	09.11.09
2. अरुण कुमार	जल-भूविज्ञानी	24.07.09 (अपराह्न)
3. आर. सी. वर्मा	जल-भूविज्ञानी	24.07.09 (अपराह्न)
4. जे. सिद्धार्थ कुमार	जल-भूविज्ञानी	23.11.09
5. ए. रवि	जल-भूविज्ञानी	09.11.09
6. ए. बी. कवादे	जल-भूविज्ञानी	03.11.09
7. एस. के. साहगल	जल-भूविज्ञानी	31.08.09
8. ओ. पी. पुनिया	जल-भूविज्ञानी	28.07.09
9. एम. एल. परमार	जल-भूविज्ञानी	27.07.09
10. अजय वीर सिंह	जल-भूविज्ञानी	09.11.09
11. एन. के. श्रीवास्तव	जल-भूविज्ञानी	24.07.09 (अपराह्न)
12. आलोक कुमार श्रीवास्तव	जल-भूविज्ञानी	03.11.09 (अपराह्न)
13. एस. एस. हेगडे	जल-भूविज्ञानी	27.07.09
14. प्रमोद कुमार त्रिपाठी	जल-भूविज्ञानी	24.07.09 (अपराह्न)
15. प्रतुल सक्सेना	जल-भूविज्ञानी	03.11.09
16. संजय जी. भारतिया	जल-भूविज्ञानी	24.07.09 (अपराह्न)
17. ठाकुर बी. सिंह	जल-भूविज्ञानी	27.07.09
18. डॉ. हेमन्त कु. पांडे	जल-भूविज्ञानी	24.07.09 (अपराह्न)
19. प्रवीर कुमार नाईक	जल-भूविज्ञानी	28.08.09

1	2	3	4
20.	एस. के. वर्मा	जल-भूविज्ञानी	09.11.09
21.	के. जे. आनंद कुमार	जल-भूविज्ञानी	17.09.09
22.	मुकेश कुमार शर्मा	जल-भूविज्ञानी	10.11.09
23.	देवाशिष जी. दासतीदार	जल-भूविज्ञानी	12.10.09
24.	एस. ए. खान	जल-भूविज्ञानी	27.07.09
25.	डी. पंचाला रेड्डी	जल-भूविज्ञानी	07.10.09
26.	डॉ. स्वप्ना देवी	जल-भूविज्ञानी	27.07.09
27.	पी. विजय कुमार	जल-भूविज्ञानी	24.07.09 (अपराह्न)
28.	वी. सी. कलीता	जल-भूविज्ञानी	27.07.09
29.	श्रीमती सबेरा आईजाज	जल-भूविज्ञानी	24.07.09 (अपराह्न)
30.	पी. एस. चौहान	जल-भूविज्ञानी	16.09.09 (अपराह्न)
31.	जे. पी. गौतम	जल-भूविज्ञानी	09.11.09
32.	राजन सिंह	जल मौसमविज्ञानी	06.11.09
33.	अजय कुमार	जल मौसमविज्ञानी	24.07.09 (अपराह्न)
34.	सुरेश चंद्र कपिल	भू भौतिकी	27.07.09
35.	के. टी. सुरेश	भू भौतिकी	09.11.09
36.	बसन्त कुमार ओरॉव	भू भौतिकी	27.07.09
37.	जी. कृष्णामूर्ति	भू भौतिकी	27.07.09
38.	डॉ. एस. चंदर सिंह	भू भौतिकी	20.08.09
39.	आर. मुरली कृष्णा	भू भौतिकी	24.07.09 (अपराह्न)
40.	नल्ली ज्योति कुमार	जल-भूविज्ञानी	27.07.09
41.	अनादी गायन	जल-भूविज्ञानी	27.07.09
42.	डॉ. अरुण कुमार	रसायन शास्त्र	27.07.09
43.	ओ. पी. मीना	रसायन शास्त्र	27.07.09
44.	काली चरण	रसायन शास्त्र	24.07.09 (अपराह्न)
45.	पी. सुधाकर	जल मौसमविज्ञानी	24.07.09 (अपराह्न)
46.	रतीकांत नायक	जल-भूविज्ञानी	27.07.09 (अपराह्न)
47.	राजीव रंजन शुक्ला	जल-भूविज्ञानी	27.07.09
48.	अशोक कुमार विश्वाल	जल-भूविज्ञानी	27.07.09
49.	डॉ. वी. एस. जोजी	जल-भूविज्ञानी	27.07.09
50.	तपन चक्रवर्ती	जल-भूविज्ञानी	27.07.09
51.	प्रशांत कुमार राय	जल-भूविज्ञानी	24.07.09 (अपराह्न)
52.	रंजन कुमार राय	जल-भूविज्ञानी	24.07.09 (अपराह्न)
53.	राजेश कुमार चंद्रा	जल-भूविज्ञानी	24.07.09
54.	उमेश एस. बालापांडे	जल-भूविज्ञानी	30.11.09
55.	डी. गणसुंदर	जल-भूविज्ञानी	27.07.09
56.	वी. के. साहू	जल-भूविज्ञानी	24.07.09 (अपराह्न)

1	2	3	4
57.	आर. के. कुशवाह	जल-भूविज्ञानी	27.07.09
58.	एस. सुब्रमण्यन	जल-भूविज्ञानी	27.07.09
59.	वी. आर. लामसोज	जल-भूविज्ञानी	24.07.09 (अपराह्न)
60.	श्रीमती संघ्या यादव	जल-भूविज्ञानी	27.07.09
61.	सुश्री डी. धयामलार	जल-भूविज्ञानी	27.07.09
62.	बिप्लव राय	जल-भूविज्ञानी	27.07.09
63.	श्रीमती रोज अनीता कुजुर	जल-भूविज्ञानी	05.10.09
64.	ए. एन. तिवारी	रसायन शास्त्र	24.07.09 (अपराह्न)
65.	जानेश्वर दास	रसायन शास्त्र	27.07.09
66.	आर. के. गुप्ता	रसायन शास्त्र	27.07.09
67.	एन. के. दीक्षित	रसायन शास्त्र	27.07.09
68.	अशोक कुमार पात्रे	जल-भूविज्ञानी	24.07.09 (अपराह्न)
69.	एम. एम. श्रीवास्तव	भू-भौतिकी	24.07.09 (अपराह्न)
70.	डी. एन. मंडल	जल-भूविज्ञानी	24.07.09 (अपराह्न)
71.	एम. एम. राव सोनकुसारे	जल-भूविज्ञानी	24.07.09 (अपराह्न)
72.	ए. के. जैन	जल-भूविज्ञानी	27.07.09
73.	डी. के. राय	जल-भूविज्ञानी	23.11.09
74.	वी. एस. वर्मा	जल-भूविज्ञानी	30.07.09
75.	डॉ. वी. उमापति	जल-भूविज्ञानी	03.11.09
76.	एन विनयचंद्रन	जल-भूविज्ञानी	11.11.09
77.	एल. एन. माथुर	जल-भूविज्ञानी	25.09.09
78.	गौतम सेन	जल-भूविज्ञानी	05.10.09
79.	राम किशन	जल-भूविज्ञानी	12.11.09
80.	जी. वाई शेटी	जल-भूविज्ञानी	05.11.09
81.	बी. यू. एम. राव	जल-भूविज्ञानी	12.11.09
82.	कुमारी अनुराधा भाटिया	जल-भूविज्ञानी	13.08.09
83.	आर. वी. विद्यासागर	जल-भूविज्ञानी	19.08.09 (अपराह्न)
84.	एल. जे. बालचंद्रा	जल-भूविज्ञानी	27.07.09
85.	एम. एल. अंगुराला	जल-भूविज्ञानी	27.07.09
86.	ए. कन्नन	जल-भूविज्ञानी	27.07.09
87.	जे. एन. भगत	जल-भूविज्ञानी	27.07.09
88.	डॉ. पंडीत माधनुरे	जल-भूविज्ञानी	24.07.09 (अपराह्न)
89.	बिनय रंजन	जल-भूविज्ञानी	21.08.09
90.	अभय कुमार पांडे	जल-भूविज्ञानी	14.09.09

1	2	3	4
91.	देवाशिष विश्वास	जल-भूविज्ञानी	12.10.09
92.	संजीव मेहरोत्रा	जल-भूविज्ञानी	13.11.09
93.	डी. चक्रवर्ती	जल-भूविज्ञानी	21.08.09
94.	तेजदीप सिंह	जल-भूविज्ञानी	31.08.09
95.	डॉ. नीलम निगम	रसायन शास्त्र	25.11.09
96.	श्रीमती पूजा मेहरोत्रा	रसायन शास्त्र	13.11.09
97.	श्रीमती वी. एन. श्रीलता	रसायन शास्त्र	27.07.09
98.	डॉ. राम प्रकाश	रसायन शास्त्र	24.07.09 (अपराह्न)
99.	श्रीमती बी. पी. सिंह	रसायन शास्त्र	25.09.09
100.	बी. बी. साहू	रसायन शास्त्र	24.07.09 (अपराह्न)
101.	डॉ. एस. के. श्रीवास्तव	रसायन शास्त्र	24.07.09 (अपराह्न)
102.	के. रविचंद्रन	रसायन शास्त्र	27.07.09
103.	राजा बाबू थम्मू	भू-भौतिकी	24.07.09 (अपराह्न)
104.	पुवुल्ला नरेंद्र	भू-भौतिकी	24.07.09 (अपराह्न)
105.	सी. आर. दास	भू-भौतिकी	27.07.09
106.	ए. रामकृष्णा	भू-भौतिकी	24.07.09 (अपराह्न)
107.	वी. एन. राजू	भू-भौतिकी	24.07.09 (अपराह्न)
108.	एस. एन. टाटा	भू-भौतिकी	24.07.09 (अपराह्न)
109.	मुहम्मद आदिल	भू-भौतिकी	24.07.09
110.	एच. एस. नामदेव	भू-भौतिकी	09.11.09
111.	डॉ. एस. एल. धाबई	भू-भौतिकी	29.09.09
112.	वी. अरुल प्रकासम	भू-भौतिकी	12.11.09
113.	के. द्वारकानाथ	जल-भूविज्ञानी	09.11.09
114.	के. बी. साहू	जल-भूविज्ञानी	24.07.09 (अपराह्न)
115.	ए. वी. एस. एस. आनंद	जल-भूविज्ञानी	24.07.09 (अपराह्न)
116.	संध्या महापात्रा	जल-भूविज्ञानी	24.07.09 (अपराह्न)
117.	बी. एन. वारके	जल-भूविज्ञानी	03.11.09
118.	वी. इलानचेलीआन	जल-भूविज्ञानी	27.07.09 (अपराह्न)
119.	मिनी एम. चंद्रन	जल-भूविज्ञानी	27.07.09
120.	विद्या नंद	जल-भूविज्ञानी	27.07.09

विनीत एब्रहाम, अवर सचिव

दिनांक 23 नवम्बर 2010

सं. 7/09/2009-सीजीडब्ल्यूबी--राष्ट्रपति, केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड में
निम्नलिखित अधिकारियों को पदोन्नति पर पी.बी.-3,

15,600--39,100/- रुपये के वेतनमान में 5,400/- रुपये ग्रेड वेतन सहित प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीखों से सहायक कार्यपालक अभियंता के रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्र. अधिकारियों के सं. नाम और पदनाम	पदोन्नति की तारीख
1. एस. सी. प्रसाद, डी.आई.सी.	08.02.2010
2. एच. के. बेहरा, डी.आई.सी.	08.02.2010
3. अमित लाल, डी.आई.सी.	05.02.2010
4. ओबुलेसु डांडेबोयिना, डी.आई.सी.	15.02.2010
5. अमित कुमार दास, डी.आई.सी.	16.02.2010
6. गिरिजा शंकर सेनापति, डी.आई.सी.	08.02.2010
7. एस. के. मीणा, ए.ई.	20.01.2010
8. वी.एस. डागर, ए.ई.	19.01.2002

वे एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे। यदि वे उनके द्वारा धारित वर्तमान पद में उनकी आगामी वेतन वृद्धि के बाद नये पद पर अपना वेतन नियत कराने के इच्छुक हैं तो वे सहायक कार्यपालक अभियंता के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक महीने के भीतर अपना विकल्प दे सकते हैं।

विनीत एब्राहम, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 09 नवम्बर 2010

सं. ए-12025/1/2008-स्टे - -राष्ट्रपति, भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय में लेखन सामग्री नियंत्रक के रूप में श्री आर. के. राय को दिनांक 04.11.2010 से अगले आदेशों तक पे बैंड-3, (15,600--39,100/- रु. + ग्रेड पे 7,600/- रु.) में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

जी. के. गौतम, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110101, the 22nd November 2010

No. A-22012/004/2010-PME—The President is pleased to appoint Shri T. R. Nair as Senior Principal Private Secretary in the National Advisory Council on deputation basis in PB-3 (15,600—39,100/-) with the Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from the forenoon of 2nd November, 2010.

K. SALIL KUMAR, Under Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 19th November 2010

No. RS/6/4/2010/111-Perl.—In supersession of Notification No. RS/6/4/2009/77-Perl. dated 24th September, 2009, the appointment of Shri Satish Dhar as Senior Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- in the personal staff of Chairman, Committee on Commerce (Shri Shanta Kumar) on co-terminus basis has been made effective from the forenoon of 1st September, 2009.

S. RANGARAJAN, Dy. Director

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 1st October 2010

No. PF. 1484-R(3)/GN-6478/AN-I/2010—The Speaker is pleased to appoint Shri Ajay Anand, IPS (UP : 92), who has been working as Deputy Inspector General, BSF on deputation basis, as Director (Security) in the Pay Band of Rs. 37,000—67,000/- (PB-4) + Grade Pay of Rs. 8,900/- in Lok Sabha Secretariat on deputation basis with effect from 1st October, 2010 upto 15th July, 2014 or until further orders, whichever is earlier.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

The 5th October 2010

No. PF. 757-R(3)/GN-6479/AN-I/2010—The Speaker is pleased to appoint Smt. Asha Wangnoo, Additional Director (LARRDIS) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 8,000/- to the grade of Director (LARRDIS) in the Pay Band of Rs. 37,000—67,000/- (PB-4) + Grade Pay of Rs. 8,700/- with effect from 1st October, 2010 until further orders.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

The 8th October 2010

No. PF. 1023-R(7)/GN-6480/AN-I/2010—Smt. Shashi Pahwa has satisfactorily completed the probation period in the Grade of Private Secretary.

2. This is in continuation of Notification No. GN-6233 dated 10th June, 2009.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

The 13th October 2010

No. PF. 924-R(3)/GN-6481/AN-I/2010—The Speaker is pleased to appoint Shri K. V. Jagannatha, Joint Director (Reporting) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 7,600/- to the grade of Additional Director (Reporting) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay of Rs. 8,000/- with effect from 13th October, 2010 until further orders.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

No. PF. 950-R(3)/GN-6482/AN-I/2010—The Speaker is pleased to appoint the following Parliamentary Reporters Grade-I who were appointed as Joint Director (Reporting) on ad-hoc basis vide Notification No. 5846 dated 03.03.2007, to the grade of Joint Director (Reporting) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay of Rs. 7,600/- on regular basis, in the order as shown below, with effect from 13th October, 2010 until further orders :—

1. Shri Muthiah Mohan

2. Shri Somnath Banerjee

P. K. GROVER, Jt. Secy.

The 15th October 2010

No. PF. 972-R(3)/GN-6483/AN-I/2010—The Speaker is pleased to appoint Smt. Rattan Pal Grover, Additional Director (PSS) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 8,000/- to the grade of Director (PSS) in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) + Grade Pay of Rs. 8,700/- with effect from 13th October, 2010 until further orders.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

No. PF. 979-R(3)/GN-6484/AN-I/2010—The Speaker is pleased to appoint the following Joint Directors (PSS) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay of Rs. 7,600/- to the grade of Additional Director (PSS) in the Pay Band of 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 8,000/-, in the order as shown below, with effect from 13th October, 2010 until further orders :—

1. Smt. Madhu Taneja

2. Smt. Gajinder Pal Kaur

P. K. GROVER, Jt. Secy.

No. PF. 995-R(3)/GN-6485/AN-I/2010—The Speaker is pleased to appoint Smt. Savita Kakkar, Senior Private Secretary in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 6,600/-, who was appointed as Joint Director (PSS) on ad hoc basis vide Notification No. GN. 6288 dated 12th August, 2009, to the grade of Joint Director (PSS) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay of Rs. 7,600/- on regular basis with effect from 13th October, 2010 until further orders.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

No. PF. 996-R(3)/GN-6486/AN-I/2010—The Speaker is pleased to appoint Smt. Neelam Tuli, Senior Private Secretary in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 6,600/- to the grade of Joint Director (PSS) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from 13th October, 2010 until further orders.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

No. PF. 1533-R(3)/GN-6487/AN-I/2010—The Speaker is pleased to appoint the following Senior Security Assistants in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) + Grade Pay of Rs. 4,800/- to the grade of Security Officer in the Pay Band of 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 5,400/- in an officiating capacity, in the order as shown below, with effect from 13th October, 2010 until further orders :—

1. Shri Ranjit Singh
2. Shri Ashok Kumar Tyagi
3. Shri Madan Lal-I

2. They will be on probation for a period of two years with effect from 13th October, 2010 upto 12th October, 2012.

3. Their inter-se seniority in the grade of Security Officer will be regulated in terms of R&CS Order No. PDA-1076/2003 dated 20th December, 2003

P. K. GROVER, Jt. Secy.

No. PF. 1335-R(3)/GN-6488/AN-I/2010—The Speaker is pleased to appoint Shri Rajesh Kumar, Editor in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 6,600/- to the grade of Joint Director (Translation) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from 13th October, 2010 until further orders.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

No. PF. 1420-R(3)/GN-6489/AN-I/2010—The Speaker is pleased to appoint Shri Laxman Prasad, Translator in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) + Grade Pay Rs. 4,800/-,

who was appointed as Assistant Editor on ad hoc basis vide Notification No. PF. 1420-R(3)/GN-6078/AN-I/2008 dated 15th July, 2008 to the grade of Assistant Editor in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay of Rs. 5,400/- on regular basis, in an officiating capacity, with effect from 13th October, 2010 until further orders. He will rank senior to Dr. (Smt.) Vandana Grover Dawar but junior to Shri Keshav Chandra Jha in the grade of Assistant Editor.

2. He will be on probation in the grade of Assistant Editor for a period of 2 years with effect from 13.10.2010 upto 12.10.2012.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

No. PF. 1417-R(3)/GN-6490/AN-I/2010—The Speaker is pleased to appoint the following Translators in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) + Grade Pay of Rs. 4,800/- to the grade of Assistant Editor in the Pay Band of 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 5,400/-, in an officiating capacity, in the order as shown below, with effect from 13th October, 2010 until further orders :—

1. Shri Keshav Chandra Jha
2. Dr. (Smt.) Vandana Grover Dawar
3. Ms. Karuna Puri
4. Smt. Anju Meena

2. They will be on probation in the grade of Assistant Editor for a period of 2 years with effect from 13.10.2010 upto 12.10.2012.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

No. PF. 1370-R(3)/GN-6491/AN-I/2010—The Speaker is pleased to appoint the following Assistant Editors in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-2) + Grade Pay of Rs. 5,400/- to the grade of Editor in the Pay Band of 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 6,600/-, in the order as shown below, with effect from 13th October, 2010 until further orders :—

1. Shri Balwan Singh
2. Shri Basant B. Bhatt
3. Shri Murli Dhar Jha

P. K. GROVER, Jt. Secy.

No. PF. 1368-R(3)/GN-6492/AN-I/2010—The Speaker is pleased to appoint Shri Raakesh C. Handoo, Assistant Editor in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 5,400/-, who was appointed as Editor on ad hoc basis vide Notification No. 1368-R(3)/GN-6076/AN-I/2008 dated 15th July, 2008 to the grade of Editor in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay of Rs. 6,600/- on regular basis, with effect from 13th October, 2010 until further orders.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

No. PF. 1369-R(3)/GN-6493/AN-I/2010—The Speaker is pleased to appoint Shri Ashok Kumar Jaiswal, Assistant Editor in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 5,400/-, who was appointed as Editor on ad hoc basis vide Notification No. 1368-R(3)/GN-6076-I/2008 dated 15th July, 2008 to the grade of Editor in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay of Rs. 6,600/- on regular basis, with effect from 13th October, 2010 until further orders.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

The 20th October 2010

No. PF. 151-R(3)/GN-6494/AN-I/2010—Consequent upon his selection for the post of Secretary/Registrar in Debts Recovery Tribunal-I, Chennai on deputation basis, Shri M. L. K. Raja, Deputy Secretary is relieved of his duties in the Secretariat with effect from the afternoon of 20th October, 2010 and thereafter his services are placed at the disposal of Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, for his appointment as Secretary/Registrar in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay of Rs. 7,600/- in Debts Recovery Tribunal-I, Chennai on deputation basis for a period of one year, i.e. upto the 20th October, 2011 or until further orders whichever is earlier.

P. K. GROVER, Jt. Secy.

The 21st October 2010

No. PF. 105-R(3)/GN-6495/AN-I/2010—The Speaker is pleased to grant Time Scale Promotion to the following Deputy Secretaries in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay of Rs. 7,600/- to the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 8,000/- with effect from 19th October, 2010 :—

1. Shri A. K. Srivastava
2. Shri Jaya Kumar T.
3. Shri T. S. Rangarajan
4. Shri Hulasi Ram
5. Shri Harish Chander-II
6. Shri Srinivasulu Gunda
7. Shri Rajesh Ranjan Kumar
8. Shri Raju Srivastava
9. Shri Sanjeev Sharma
10. Shri P. C. Choulda
11. Smt. Mamta Kemwal
12. Shri Kusal Sarkar

P. K. GROVER, Jt. Secy.

No. PF. 210-R(3)/GN-6496/AN-I/2010—The Speaker is pleased to grant Time Scale Promotion to the following EO/LO/CO/POs in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 5,400/- to the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-, with effect from 19th October, 2010 :—

1. Shri M.D. Tuteja
2. Smt. Meenakshi R.
3. Smt. Savita Sharma
4. Smt. Usha Gupta
5. Shri Vinay Pradeep Barwa
6. Shri Sona
7. Shri V.K. Shailon
8. Shri A. Sivanandam
9. Shri Kavi Raj
10. Shri Ashok Kumar Sharma
11. Smt. K. Rangamani Narasimhan
12. Shri Harpal Singh
13. Ms. Miranda Ingudam
14. Shri Rajender Singh Yadav
15. Smt. Kalavati Gola
16. Shri Lakshmikanta Singh Sougajam
17. Shri Ajit Kumar Yadav
18. Shri Shiva Nand
19. Shri Ramesh Chand Wadhwa
20. Shri Tika Ram Nauriyal
21. Smt. Madhu Bhutani
22. Shri Krishan C. Pandey
23. Shri B.D. Dhyani
24. Shri V. Ganapathy
25. Shri Arun Kumar
26. Smt. Anju Kukreja
27. Smt. L. Nemjalhing Haokip
28. Shri Sri Pal
29. Shri Ramesh Chand Aheria

P.K. GROVER, Jt. Secy.

No. F.15/07/GN-6497/AN-I/2010—Consequent upon his selection to the post of Parliamentary Reporter Grade-II on the basis of the preliminary examination held on 01.11.2009 followed by stenographic tests on 16/17th January 2010 and personal interview on 20.02.2010 in Lok Sabha Secretariat, the Speaker is pleased to appoint Shri Ijju Sumanth to the grade of

Parliamentary Reporter Grade-II in the scale of Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) with Grade Pay Rs. 5,400/- in an officiating capacity with effect from the forenoon of 30th September, 2010 until further orders.

2. He will be on probation for a period of two years with effect from 30th September, 2010 upto 29th September, 2012.

3. His inter-se-seniority in the grade of Parliamentary Reporter Grade-II will be regulated in terms of R&CS Order No. PDA-1076/2003 dated 20th December, 2003.

P.K. GROVER, Jt. Secy.

No. PF. 13-R(3)/GN-6498/AN-I/2010—Shri A. Mukhopadhyay, (IA&AS:1980), who is presently working as Joint Secretary on deputation basis, has been granted Earned Leave with effect from 6th October, 2010 upto 12th November, 2010 with permission to suffix 13th and 14th November, 2010 being Saturday and Sunday. On expiry of the aforesaid period of leave, Shri A Mukhopadhyay stands relieved of his duties in this Secretariat with effect from the forenoon of 15th November, 2010, and thereafter, his services are placed back at the disposal of his parent department i.e. Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.

2. The existing tenure of deputation of Shri A. Mukhopadhyay in Lok Sabha Secretariat shall be deemed to have been curtailed from 28.11.2010 to 14.11.2010.

P.K. GROVER, Jt. Secy.

No. PF. 1177-R(3)/GN-6499/AN-I/2010—The Speaker is pleased to grant Time Scale Promotion to the following Joint Directors (Interpretation) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade pay Rs. 7,600/- to the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 8,000/-, with effect from 23rd October, 2010 :—

1. Smt. Suman Arora
2. Shri Chander Mohan
3. Shri Ramesh Kumar Yadav
4. Shri Atul Anand
5. Shri Dachhbanta Samom
6. Ms. Shiv Mogha

U.B.S. NEGI, Director

No. PF. 1191-R(3)/GN-6500/AN-I/2010—The Speaker is pleased to grant Time Scale Promotion to the following Parliamentary Interpreters Grade-II in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 5,400/- to the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 6,600/-, with effect from 23rd October, 2010 :—

1. Ms. Pritishree Mohanty
2. Shri Mohan Parasain

3. Shri Ram Krishan Sharma
4. Shri K.N. Viju
5. Shri I.A.V.N.S. Murthy

U.B.S. NEGI, Director

No. PF. 1521-R(3)/GN-6501/AN-I/2010—The Speaker is pleased to grant Time Scale Promotion to the following Security Officers in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 5,400/- to the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 6,600/-, with effect from 23rd October, 2010 :—

1. Shri Abhay Kumar
2. Shri Rejaul Karim Purnavi
3. Shri Bhagwati prasad Raturi
4. Smt. Deepika Bhalla
5. Shri S.S. Sangwan

U.B.S. NEGI, Director

No. PF. 778-R(3)/GN-6502/AN-I/2010—The Speaker is pleased to grant Time Scale Promotion to the following Joint Directors (LARRDIS) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 7,600/- to the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 8,000/-, with effect from 23rd October, 2010 :—

1. Smt. Manju Sharma
2. Km. Samita Bhowmick
3. Dr. B.C. Joshi
4. Dr. P.J. Antony
5. Shri Pulin B. Bhutia
6. Shri Harsh Chaturvedi
7. Smt. Sushma Rungta
8. Shri Pradosh Panda
9. Dr. Jayadev Sahu
10. Shri B. Phani Kumar
11. Smt. Neelam Sethi
12. Shri R.K. Thakur
13. Smt. Parma Chatterjee
14. Smt. Sunanda Das Mohanty
15. Smt. Sunita Bhalla
16. Shri G. Ranga Rao

U.B.S. NEGI, Director

No. PF. 823-R(3)/GN-6503/AN-I/2010—The Speaker is pleased to grant Time Scale Promotion to the following Research/Reference Officers in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 5,400/- to the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 6,600/-, with effect from 23rd October, 2010 :—

1. Ms. Madhu Sharma
2. Smt. Promila Pant
3. Smt. Bela Routh
4. Smt. Nirmala Sharma
5. Smt. Kusum Rawat
6. Smt. Rashmi Kapoor
7. Smt. Lata Bansal
8. Shri Gurnam Singh
9. Shri B.D. Sharma
10. Shri Naresh Arora
11. Shri Dalip Singh
12. Dr. Amar Kumar Prusty

U.B.S. NEGI, Director

No. PF. 1373-R(3)/GN-6504/AN-I/2010—The Speaker is pleased to grant Time Scale Promotion to the following Assistant Editors in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 5,400/- to the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 6,600/-, with effect from 23rd October, 2010 :—

1. Smt. Nisha Sharma
2. Shri Jai Mukesh Shukla
3. Shri Raj Kumar
4. Shri Bishan Kumar
5. Shri Dharam Singh
6. Shri Amar Singh
7. Shri Mahendra Singh
8. Shri Basant Prasad
9. Shri Ravindra kumar Mair
10. Ms. Paramjeet Kaur
11. Smt. Sunita Upadhayay
12. Shri Narad Prasad Kimothi
13. Shri Shivaji Shrivastava
14. Smt. Rohini Sharma
15. Shri Bhushan Kumar
16. Shri Uday Sharan

17. Shri Nalin Kumar
18. Shri Srivilasa Pandey
19. Smt. Indu Bakshi
20. Shri Suresh Kumar Suneja
21. Shri Shailesh Kumar
22. Shri Shiv Kumar
23. Smt. Pallavi Singh
24. Shri Sanjay Kumar Singh
25. Shri Rajinder Kumar
26. Smt. Kirti Yadav
27. Smt. Sunita Arora
28. Smt. Sunita Thapliyal
29. Shri Manoj Kumar Pankaj
30. Shri Virender Singh Rawat
31. Shri Rejendra Kumar Sharma
32. Smt. Renu Bala Sudan
33. Shri Yogendra Kumar
34. Shri Har Singh
35. Shri Sanjay Kumar Chaudhary
36. Shri Bijay Anand Sharma
37. Smt. Sarita Sahare
38. Shri Brajesh Kumar
39. Shri Md. Motsim

U.B.S. NEGI, Director

No. PF. 1211-R(3)/GN-6505/AN-I/2010—The Speaker is pleased to grant Time Scale Promotion to the following Managers of Printing in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 5,400/- to the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay Rs. 6,600/-, with effect from 23rd October, 2010 :—

1. Shri Subhendu Sett
2. Shri Jag Bhushan Verma
3. Shri Nand Kishore Dhyani
4. Shri Satish Chander

U.B.S. NEGI, Director

PLANNING COMMISSION

New Delhi, 22nd November 2010

No. A. 12025/27/2002-Adm.I :—In supersession of earlier notification of even number dated 18th November, 2009, the President is pleased to appoint Dr. Biswajit Banerjee, IFS

(UP : 91) as Director (Forestry) in the Planning Commission in the Pay Band : 4 of Rs. 37,400—67,000/- + Grade pay of Rs. 8,700/- plus Rs. 1,000/- p.m. as CDTA on Central Deputation basis for a period of five years w.e.f. 16/11/2009(FN) and upto 15/11/2014 or until further orders, whichever is earlier.

G. RAJEEV, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 19th November 2010

No. A. 32012/1/2009-Admn.I(L.D.)—On the basis of recommendation of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint Ms. Upma Mathur, Assistant Legislative Counsel (Hindi) in the Official Languages Wing of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to the post of Deputy Legislative Counsel (Hindi) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/- in the said Wing of the Legislative Department of Ministry of Law and Justice on the regular basis with effect from the afternoon of 18th November, 2010 and until further orders.

M.R. BEERH, Dy Secy.

The 26th November 2010

No. A. 32015/1/2009-Admn.I (LD)—The President is pleased to appoint Shri Ashok Kumar Bhargava, Senior Printing Assistant in the Official Languages Wing of the Legislative Department, Ministry of Law & Justice to officiate as Superintendent (Printing) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,600/- in the said Wing of this Department, Ministry of Law & Justice on ad hoc basis for a period of six months with effect from the forenoon of 26th November, 2010 and until further orders.

2. This ad hoc appointment will not bestow on Shri Ashok Kumar Bhargava any claim for regular appointment whatsoever for the grade of Superintendent (Printing) nor the ad hoc service rendered by him will count for the purpose of seniority in the grade or for his promotion to the next higher grade.

M.R. BEERH, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 23rd November 2010

No. A-45012/1/2009-Admn. III(LA)—The Central Government is pleased to appoint Shri Narasingha Mishra, as Part-Time Member of the 19th Law Commission of India with effect from the forenoon of the 3rd November, 2010 for the period upto 31st August 2012, i.e. till the end of the term of the 19th Law Commission of India.

M.A. KHAN YUSUFI, Jt. Secy.
& Legal Adviser

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 26th November 2010

No. 1-14013/46/2010-IPS.I—Consequent upon inclusion of the name of Shri Arun K. Kampani in the Select List of 2007 and in continuation to order dated 28/10/2010 of the Hon'ble Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi in O.A. No. 1292 of 2010 through which the Hon'ble Court has ordered for appointment of the officer to the Indian Police Service from the Select List of 2007, the President, in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, is pleased to appoint Shri Arun K. Kampani (D.O.B. 15/01/1959), a member of DANIPS to the Union Territories Segment of the Joint AGMU Cadre of the Indian Police Service on probation and to allocate him to the Joint Cadre of AGMU.

2. The appointment will take effect from the date of issue of this notification.

O.S. ASHOK, Under Secy.

(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi, the 29th November 2010

No. 14034/27/2007-OL(Trg.)—With the approval of the Competent Authority the period of deputation of Shri Shiv Pal Singh Negi, Administrative Officer, Central Hindi Training Institute, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs is extended beyond 12th June 2010 to 11th December, 2010 or till further orders, whichever is earlier.

VIJAY KUMAR GUPTA, Under Secy.

COMMITTEE OF PARLIAMENT ON OFFICIAL LANGUAGE

New Delhi-110001, the 23rd November 2010

No. A-20012/5/2010-S-6—The President is pleased to appoint Sh. Pradeep Kumar Sharma, Hindi Pradhyapak, Hindi Teaching Scheme, Nagpur to the post of Sr. Research Officer in the Committee of Parliament on Official Language Secretariat on deputation basis in the pay scale of PB-3, Rs. 15,600—39,100/- Grade Pay Rs. 6,600/- w.e.f. dated 01.09.2010 (forenoon) for a period of three year's or till further orders.

L. R. YADAV, Under Secy. (Admn.)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi-110001, the 23rd November 2010

No. A-32013/2/2009-Ad. I.—The President is pleased to appoint Smt. Alka Sirohi, IAS (MP : 74), as Secretary, Department of Personnel and Training (Ministry of

Personnel, Public Grievances and Pensions) with effect from the forenoon of 01st November, 2010, until further orders.

PRIYA MAHADEVAN, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 9th November 2010

No. 22/PA-II/2010—On attaining the age of superannuation, Shri Nav Rattan Singh, retired from Junior Administrative Grade of the Indian Foreign Service on the afternoon of 31st October, 2010.

ALOK RANJAN JHA, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 1st November 2010

No. 45/2010. (F.No. A-32012/24/2009-Ad. II)—The President is pleased to grant the Non-Functional Selection Grade (NFSG) in the Pay Band-4 with Grade Pay of Rs. 8,700/- (corresponding to pre-revised pay scale of Rs. 14,300—18,300/-) to Shri N. Muthuchidambaram, IRS (C&CE) in Junior Administrative Grade in the Central Board of Excise & Customs, on ad hoc basis with effect from 19.01.2010, until further orders.

R. SANEHWAL, Dir.

New Delhi, the 12th November 2010

No. 108 : (F.No. A-19012/16/2010-Ad. I)—Consequent upon inclusion of his name in the Selection Grade (Deputy Secretary) Select List of CSS for the year 2010 and in pursuance of the Department of Personnel and Training's Office Order No. 4/2/2010-CS-I(D) dated 04th November, 2010, the President is pleased to appoint Shri Krishan Kumar Khattar, as Deputy Secretary in this Department on regular basis w.e.f. 08.11.2010 (FN) and until further orders.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 24th November 2010

No. A-19011/7/2009-Admn. II.—The President is pleased to appoint Ms. Monika Dhami, IRS (IT : 2001), Under Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance as Deputy Secretary in the same Department with effect from the forenoon of 10th November 2010 for the balance period of her tenure i.e. upto 03.06.2013 or until further orders, whichever is earlier.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 26th November 2010

No. 13028/05/2009/PF-IES.—The President is pleased to accept the technical resignation of Shri Shelesh Nawal, an officer of the Indian Economic Service (IES : 2009 Batch) with effect from 27th August, 2010 (AN), consequent upon his selection in the Indian Administrative Service (IAS) through Civil Services (Main) Examination, 2009 conducted by the Union Public Service Commission.

His name has, accordingly, been struck off the rolls of the IES Cadre.

URMILA RAWAT, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY & PROMOTION)

New Delhi, the 19th November 2010

No. A-45011/3/2010/E.I.—In pursuance of the Department of Personnel & Training O.M. No. 6/6/2009-CS.I (S) dated the 30.08.2010, the following Assistants of the CSS Cadre of the Department of Industrial Policy & Promotion (Ministry of Commerce & Industry), belonging to the Select List of 1998 (General), Select List of 1999 (SC Category) and Select List of 2001 (ST Category) are promoted to the grade of Section Officer on purely ad hoc basis in the CSS Cadre of this Department with effect from the date indicated against each for a period upto 31.12.2010 or till regular Section Officers are made available, whichever is earlier :—

Sl. No.	SCSL No. & Select List Year	Name	Date of appointment	Place of posting
1.	9/1997	Smt. Parvinder Kaur Chandio	29.09.2010	D/o IPP
2.	35/1997	Shri B. B. Saxena	29.09.2010	O/o E.A.
3.	61/1997	Shri Amit Srivastava	01.10.2010	D/o IPP
4.	120/1997	Smt. Anita Oberio	01.10.2010	D/o HI
5.	122/1997	Smt. Manorama Kaul	01.10.2010	D/o HI
6.	126/1997	Shri S. C. Bhardwaj	29.09.2010	DIPP
7.	1998	Smt. Asifa Samin	01.10.2010	D/o HI

The appointments ordered above have been made purely on ad-hoc basis and do not confer any right upon the officers to continue in the same post indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority etc. in the Section Officers grade of CSS. The ad hoc appointment would continue till regular candidates in Section Officers Grade are available either through Seniority Quota or Limited Departmental Competitive Examination. In the event of the ad hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistant's Grade on availability of such regular officers

from the date of regular Section Officers join duty in their respective Cadre allotted to them by DoP&T.

P. BHARDWAJ, Under Secy.

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 30th September 2010

No. 2(23)/2009-Estt.—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 5/3/2010-CS.I(U) dated the 03rd September, 2010, the President is pleased to appoint Shri K. Balan Nair, Section Officer of CSS in Department of Personnel & Training as Under Secretary in the CSS cadre of Ministry of Steel on ad hoc basis w.e.f. the forenoon of 16th September, 2010.

The ad hoc promotion shall be subject to the following conditions :—

- (i) It shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of the CSS.
- (ii) Ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- (iii) The ad hoc promotion shall be subject to the final outcome in OA No. 3294/2009 titled Shri P. R. Sharma Vs. UoI and OA No. 2674/2009 titled Shri P. S. Bhandari Vs. UoI & Ors. pending before CAT, New Delhi.

G. VAIDHEESWARAN, Under Secy.

No. 2(23)/2009-Estt.—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 5/3/2010-CS.I(U) dated the 03rd September, 2010, the President is pleased to appoint Shri C. A. Joseph, Section Officer of CSS in Ministry of Health & Family Welfare as Under Secretary in the CSS cadre of Ministry of Steel on ad hoc basis w.e.f. the forenoon of 10th September, 2010.

The ad hoc promotion shall be subject to the following conditions :—

- (i) It shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of the CSS.
- (ii) Ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- (iii) The ad hoc promotion shall be subject to the final outcome in OA No. 3294/2009 titled Shri P. R. Sharma Vs. UoI and OA No. 2674/2009 titled Shri P. S. Bhandari Vs. UoI & Ors. pending before CAT, New Delhi.

G. VAIDHEESWARAN, Under Secy.

The 1st October 2010

No. 2(9)/2010-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Deepak Kumar, Assistant of CSS cadre of Ministry of Steel as Section Officer in the CSS cadre of Ministry of Steel on ad hoc basis w.e.f. 01.10.2010 (FN) upto 31.12.2010 or until further order whichever is earlier.

The ad hoc appointment will be subject to the following conditions :—

It shall not confer any right to continue indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion or to claim seniority in the grade of Section Officer of the CSS; and

The ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

G. VAIDHEESWARAN, Under Secy.

No. 2(9)/2010-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Rajesh Kumar, Assistant of CSS cadre of Ministry of Steel as Section Officer in the CSS cadre of Ministry of Steel on ad hoc basis w.e.f. 01.10.2010 (FN) upto 31.12.2010 or until further order whichever is earlier.

The ad hoc appointment will be subject to the following conditions :—

It shall not confer any right to continue indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion or to claim seniority in the grade of Section Officer of the CSS; and

The ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

G. VAIDHEESWARAN, Under Secy.

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 23rd November 2010

No. A-32014/1/2005-Admn./Estt.—In pursuance of Department of Personnel and Training's O.M. No. 6/5/2010-CS.I(S) dated the 30th August, 2010 and subject to the terms and conditions mentioned therein, the President is pleased to appoint the following Assistants of the cadre of the Ministry of Coal to the Section Officers' Grade of CSS cadre of the Ministry of Coal, in the pay structure PB-2 : Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from the date of their joining in Section Officers' grade upto 31.12.2010 or till regular Section Officers are made available, whichever is earlier :—

Shri Raj Kumar Bhatt

Shri V. D. Vashishth

2. The above appointment is being made purely on ad hoc basis and shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers' Grade of the CSS. The Government

reserves the right to terminate the above ad hoc appointment at any point of time without giving any reason therefor.

H. C. AGRAWAL, Dir.

No. A-32014/1/2005-Admn./Estt.—In pursuance of Department of Personnel and Training's O.M. No. 6/5/2010-CS.I(S) dated the 30th August, 2010 and subject to the terms and conditions mentioned therein, the President is pleased to appoint Shri N. C. Kashyap, Assistants of the cadre of the Ministry of Coal to the Section Officer's Grade of CSS cadre of the Ministry of Coal, in the pay structure PB-2 : Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from the date of his joining in Section Officer's grade on or after 01st December, 2010 upto 31.12.2010 or till regular Section Officers are made available, whichever is earlier :—

2. The above appointment is being made purely on ad hoc basis and shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers' Grade of the CSS. The Government reserves the right to terminate the above ad hoc appointment at any point of time without giving any reason therefor.

H. C. AGRAWAL, Dir.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 22nd November 2010

No. A-12011/8/2006-Estt.—In pursuance of the recommendations of the Union Public Service Commission vide their file No. F. 1/36(11)/2010-API dated the 10th November, 2010, the President is pleased to promote the undermentioned regular Metrological Assistants and officiating Assistant Directors (LM) in the Department of Consumer Affairs, as Assistant Director (Legal Metrology) on regular basis, in order of their seniority, in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from the 10th November, 2010 :—

Sl. No.	Name
1.	Shri Anshul Singh
2.	Shri Ashutosh Aggarwal
3.	Shri Rakesh Joshi
4.	Shri Chandra Shekhar Sharma
5.	Shri Manoj Kumar Naik

PREMA BHATT, Under Secy.

New Delhi, the 26th November 2010

No. A-32013/4/2009-NTH (Estt)—The President is pleased

to promote Smt. V. K. Teli to the post of Assistant Director (Administration) Grade-I in the National Test House, in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from 31st March, 2010 (FN).

KEWAL KRISHAN, Under Secy.

The 30th November 2010

No. A-32013/2/2009-NTH (Estt)—The President is pleased to appoint the following Scientist-SB to the post of Scientist-SC (Chemical) in the National Test House on In-situ basis under Flexible Complementing Scheme in the pay scale of Rs. 15,600—39,100/- + 6,600/- with effect from the date mentioned against each:—

Sr. No.	Name	Date of taking over charge
1.	Dr. S. B. Kusare	29th November, 2010 (Forenoon)
2.	Sh. Samir Mukherjee	15th November, 2010 (Forenoon)
3.	Dr. S. K. S. Yadav	15th November, 2010 (Forenoon)
4.	Sh. Monishankar Mitra	16th November, 2010 (Forenoon)

KEWAL KRISHAN, Under Secy.

(DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 15th November 2010

No. A-12023/4/95-E. I.—The President is pleased to appoint Shri Bhushan Chander Gupta, IAS (PB : 75) as Secretary, Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution w.e.f. the forenoon of 15th November, 2010 until further orders.

ARUN KUMAR SINGH, Under Secy.

The 22nd November 2010

No. A-38012/7/2010-E. I.—Shri M. S. Sethi, Deputy Secretary of the CSS of the Department of Food & Public Distribution will retire from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 30th November, 2010.

ARUN KUMAR SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(PRINCIPAL ACCOUNTS OFFICE)

New Delhi-110003, the 25th October 2010

No. PrAO/MOES/Admn./T&P/2010-11/488—The President is pleased to retire Smt. K. D. Thipse, Pay & Accounts Officer from Government Service on attaining the age of superannuation w.e.f. 31.10.2010 (AN).

JAGDISH PRASAD, Sr. Accounts Officer (Admn.)

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi-110003, the 28th September 2010

No. 6-3/2008-FE (Vol. I) (.)—The President is pleased to appoint following, Senior Technical Assistants, to the post of Assistant Director in Forest Survey of India, Dehradun, in the scale of pay of Rs. 8,000—13,500/- (Group 'A'—Pre-revised) with effect from 01.09.2010 :—

Sl. No.	Name
	S/Shri
1.	S. K. Pipara
2.	B. V. S. Chauhan
3.	G. S. Rawat (ST)
4.	Sunil Chandra

2. The appointment of above officers would be subject to the outcome of the OA No. 548/2003 (Shri Nautiyal & Others V/s Union of India & Others) in the Hon'ble CAT Allahabad Bench.

MALTI RAWAT, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi-11, the 25th November 2010

No. A-35014/1/2010-CHS V—The President is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Beena Cheriyan, Medical Officer of Corporation of Chennai to the post of Medical Officer in the pay scale of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- in the General Duty Medical Officer sub-cadre of Central Health Service on regular basis w.e.f. the forenoon of the 15.03.2010.

PAWAN KUMAR, Under Secy.

No. A-35014/3/2010-CHS V—The President is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Archana Wankhade, Medical Officer, Govt. of Uttar Pradesh to the post of Medical Officer in the pay scale of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- in the General Duty Medical Officer sub-cadre of Central Health Service on regular basis w.e.f. the forenoon of the 29.03.2010.

PAWAN KUMAR, Under Secy.

No. A-35014/2/2010-CHS V—The President is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Priti Dutt, Medical Officer, Govt. of Bihar to the post of Medical Officer in the pay scale of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- in the General Duty Medical Officer sub-cadre of Central Health Service on regular basis w.e.f. the forenoon of the 11.03.2010.

PAWAN KUMAR, Under Secy.

No. A-35014/09/2010-CHS V—The President is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Hirabati Naik, Specialist Grade-I, Dermatology, Govt. of Punjab to the post of Specialist Grade-I, Dermatology in the pay scale of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- in the Non-Teaching sub-cadre

of Central Health Service on regular basis w.e.f. the forenoon of the 17.03.2010.

PAWAN KUMAR, Under Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 23rd November 2010

No. A-38012/4/2009-Admn.-I—Shri Vijay Kumar Khanna, Assistant Director, CBHI, of the Directorate General of Health Services retired (Voluntarily) from Government Service with effect from 03.08.2010 (FN).

R. K. KALRA, Dy. Director Admn. (RKK)

MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 20th September 2010

No. 4-19/2010-Admn.—Consequent upon inclusion in the Selection Grade (Deputy Secretary) Select List of CSS for the year 2010 (part) vide Department of Personnel and Training's OM No. 4/2/2010-CS.I (D) dated 25th August, 2010, the President is pleased to appoint Shri Pradeep Kapoor, a regular Grade-I (Under Secretary) officer of Central Secretariat Service as Deputy Secretary of Central Secretariat Service on regular basis in the Ministry of Women & Child Development with effect from 01.09.2010 (FN).

NAVEEN YADAV, Under Secy.

The 29th September 2010

No. 5-9/2010-Admn.—In pursuance of this Ministry's Office Order of even number dated 16th September, 2010, the President is pleased to appoint Smt. Sarojini Bhatt, a regular Assistant of CSS working in this Ministry as Section Officer of CSS purely on temporary and ad hoc basis with effect from the forenoon of 24th September, 2010.

2. The above promotion is subject to the conditions laid down in the DoPT's OM No. 6/5/2010-CS.I (S) dated 30th August, 2010.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

The 26th October 2010

No. 5-1/2008-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Anshu Mauli Kumar, a regular Section Officer of CSS as Grade-I (Under Secretary) on ad hoc basis in the Ministry of Women and Child Development with effect from the forenoon of 01.10.2010 i.e. the date he has assumed the charge of Under Secretary.

2. The appointment will be subject to relevant conditions prescribed in DoPT's OM No. 5-3/2010-CS. I (U) dated 3rd September, 2010.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

No. 4-32/2006-Admn.—Consequent upon her attaining the age of superannuation, Smt. Prem Mittal, Section Officer in the Ministry of Women and Child Development shall stand retired from Government service with effect from 31.10.2010 (Afternoon).

NAVEEN YADAV, Under Secy.

The 10th November 2010

No. 5-9/2010-Admn.—In pursuance of this Ministry's Office Order of even number dated 1st November, 2010 the President is pleased to appoint Smt. Neelam Nayyar, a regular Assistant of CSS working in this Ministry as Section Officer of CSS purely on temporary and ad-hoc basis with effect from the forenoon of 1st November, 2010.

2. The above promotion is subject to the conditions laid down in the DoPT's OM No. 6/5/2010-CS.I (S) dated 30th August, 2010.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

The 15th November 2010

No. 3-2/2006-Admn. (Vol. II)—In pursuance of DoPT's OM No. 4/10/2010-EO (MM. I) dated 6th October, 2010, the President is pleased to appoint Ms. Rupa Dutta, IES (1986) as Director in the Ministry of Women and Child Development for a period of five years or until further orders whichever event takes place earlier with effect from the forenoon of 27.10.2010.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

The 18th November 2010

No. 4-10/2010-Admn.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Office Order No. 4/2/2010-CS. I (D) dated 4th November, 2010, Shri L. T. Tluanga, Director is hereby relieved from this Ministry with effect from 18.11.2010 (AN) with a direction to take up his new assignment in Ministry of Defence.

NAVEEN YADAV, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

New Delhi-110115, the 1st November 2010

No. A-19020/20/2006-Estt. I—Consequent on attaining the age of superannuation, Shri K. K. Sharma, Section Officer in the Ministry of Social Justice & Empowerment stands retired from Government Service w.e.f. the afternoon of 31st October, 2010.

VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.

The 11th November 2010

No. A-12034/02/2009-Estt. II—The President is pleased to appoint Shri M. Subramanian, who is presently posted as Assistant Private Secretary in the Office of the Minister of State for Social Justice and Empowerment (Shri D. Napoleon) as Additional Private Secretary to MOS (SJ&E) in Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 6,600/- w.e.f. 27.09.2010 (FN) on purely temporary and co-terminus basis with the tenure of the Minister or until further orders, whichever is earlier.

VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 25th November 2010

No. E(GP)2006/1/36—In partial modification of notifications No. E(GP)2000/1/56 dated 21.08.2002 and E(GP) 2002/1/56 dated 10.12.2003, the appointment of S/Shri S. R. Kiskoo (ST) and S. K. Das (SC) to the Junior Scale of Indian Railway Stores Service (IRSS) on N. E. Railway in the 2001-02 and 2002-03 panels respectively may be treated as cancelled.

2. The President is now pleased to appoint S/Shri S. R. Kiskoo (ST) and S. K. Das (SC), Group 'B' officers of Stores Department to Group 'A'/Junior Scale of Indian Railway Stores Service (IRSS) with effect from 15.10.2003 on N. E. Railway in the 2003-2004 panel.

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

The 26th November 2010

No. E(O)III-2010/RN/28—Consequent upon his permanent absorption in Hindustan Paper Corporation Ltd., Shri Amitabh Banerjee, SAG/IRAS, has resigned from Railway service with effect from 09.09.2010.

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 19th November 2010

No. 24/10 F. No. 2/1/2008-Adm.II—The President is pleased to extend the tenure of Shri Gireesh B. Pradhan, IAS (MH : 1977), Additional Secretary, Ministry of Power, for a period of three months with effect from the forenoon of the 17th November, 2010 to 16th February, 2011 or until further orders, whichever is earlier.

MADHUKAR SOOD, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 10th November 2010

No. 7/11/2009-CGWB—The President is pleased to promote the following Executive Engineers as Superintending Engineer in the scale of pay in PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- on regular basis in Central Ground Water Board with effect from the dates indicated against each :—

Sl. No.	Name of the Officers	Date of promotion
	S/Shri	
1.	D. N. Arun	07.05.2010 (FN)
2.	K. R. Biswas	30.04.2010 (FN)

VINEETH ABRAHAM, Under Secy.

No. 7/11/2008-CGWB—In pursuance of this Ministry's Office Order of even No. dated 24th July, 2009 the following officers in the grade of Scientist 'B' (scale of pay in PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + GP Rs. 5,400/-) in the Central Ground Water Board have taken over the charge of the grade of Scientist 'C' in the scale of pay in PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + GP Rs. 6,600/- on promotion as in-situ basis under the Flexible Complementing Scheme (FCS) with effect from the dates mentioned against their names:—

Sl. No.	Name of the Officer	Discipline	Date of Joing as Scientist 'C'
1	2	3	4
	S/Shri		
1.	A. K. Bhargava	Hydrogeology	09.11.09
2.	Arun Kumar	Hydrogeology	24.07.09 (AN)
3.	R. C. Verma	Hydrogeology	24.07.09 (AN)
4.	J. Sidhardha Kumar	Hydrogeology	23.11.09
5.	A. Ravi	Hydrogeology	09.11.09
6.	A. B. Kawade	Hydrogeology	03.11.09
7.	S. K. Saigal	Hydrogeology	31.08.09
8.	O. P. Poonia	Hydrogeology	28.07.09
9.	M. L. Parmar	Hydrogeology	27.07.09
10.	Ajai Vir Singh	Hydrogeology	09.11.09
11.	N. K. Srivastava	Hydrogeology	24.07.09 (AN)
12.	Alok Kumar Srivastava	Hydrogeology	03.11.09 (AN)
13.	S. S. Hegde	Hydrogeology	27.07.09
14.	Pramod Kumar Tripathi	Hydrogeology	24.07.09 (AN)
15.	Pratul Saxena	Hydrogeology	03.11.09
16.	Sanjay G. Bhartariya	Hydrogeology	24.07.09 (AN)
17.	Thakur B. Singh	Hydrogeology	27.07.09

1	2	3	4
	S/Shri		
18.	Dr. Hemant Kr. Pandey	Hydrogeology	24.07.09 (AN)
19.	Prabir Kumar Naik	Hydrogeology	28.08.09
20.	S. K. Verma	Hydrogeology	09.11.09
21.	K. J. Anandha Kumar	Hydrogeology	17.09.09
22.	Mukesh Kumar Sharma	Hydrogeology	10.11.09
23.	Debashish G. Dastidar	Hydrogeology	12.10.09
24.	S. A. Khan	Hydrogeology	27.07.09
25.	D. Panchala Reddy	Hydrogeology	07.10.09
26.	Dr. Swapna Devi	Hydrogeology	27.07.09
27.	P. Vijay Kumar	Hydrogeology	24.07.09 (AN)
28.	B. C. Kalita	Hydrogeology	27.07.09
29.	Smt. Sabera Aijaz	Hydrogeology	24.07.09 (AN)
30.	P. S. Chauhan	Hydrogeology	16.09.09 (AN)
31.	J. P. Gautam	Hydrogeology	09.11.09
32.	Rajan Singh	Hydrometeorology	06.11.09
33.	Ajai Kumar	Hydrometeorology	24.07.09 (AN)
34.	Suresh Chandra Kapil	Geophysics	27.07.09
35.	K. T. Suresha	Geophysics	09.11.09
36.	Basant Kumar Oraon	Geophysics	27.07.09
37.	G. Krishnamurthy	Geophysics	27.07.09
38.	Dr. S. Chander Singh	Geophysics	20.08.09
39.	R. Murali Krishna	Geophysics	24.07.09 (AN)
40.	Nalli Jyothi Kumar	Hydrogeology	27.07.09
41.	Anadi Gayen	Hydrogeology	27.07.09
42.	Dr. Arun Kumar	Chemistry	27.07.09
43.	O. P. Meena	Chemistry	27.07.09
44.	Kali Charan	Chemistry	24.07.09 (AN)
45.	P. Sudhakar	Hydrometeorology	24.07.09 (AN)
46.	Ratikanta Nayak	Hydrogeology	27.07.09 (AN)
47.	Rajiv Ranjan Shukla	Hydrogeology	27.07.09
48.	Ashok Kumar Biswal	Hydrogeology	27.07.09
49.	Dr. V. S. Joji	Hydrogeology	27.07.09
50.	Tapan Chakraborty	Hydrogeology	27.07.09
51.	Prashant Kumar Rai	Hydrogeology	24.07.09 (AN)
52.	Ranjan Kumar Ray	Hydrogeology	24.07.09 (AN)
53.	Rajesh Kumar Chandra	Hydrogeology	24.07.09
54.	Umesh S. Balapandey	Hydrogeology	30.11.09
55.	D. Gnanasunder	Hydrogeology	27.07.09
56.	B. K. Sahoo	Hydrogeology	24.07.09 (AN)
57.	R. K. Kushwaha	Hydrogeology	27.07.09

1	2	3	4
	S/Shri		
58.	S. Subramanian	Hydrogeology	27.07.09
59.	B. R. Lamsoze	Hydrogeology	27.07.09 (AN)
60.	Smt. Sandhya Yadav	Hydrogeology	27.07.09
61.	Ms. D. Dhayamalar	Hydrogeology	27.07.09
62.	Biplab Ray	Hydrogeology	27.07.09
63.	Smt. Rose Anita Kujur	Hydrogeology	05.10.09
64.	A. N. Tiwari	Chemistry	24.07.09 (AN)
65.	Janeshwar Dass	Chemistry	27.07.09
66.	R. K. Gupta	Chemistry	27.07.09
67.	N. K. Dixit	Chemistry	27.07.09
68.	Ashok Kumar Patre	Hydrogeology	24.07.09 (AN)
69.	M. M. Srivastava	Geophysics	24.07.09 (AN)
70.	D.N. Mandal	Hydrogeology	24.07.09 (AN)
71.	M. M. Rao Sonkusare	Hydrogeology	24.07.09 (AN)
72.	A. K. Jain	Hydrogeology	27.07.09
73.	D. K. Rai	Hydrogeology	23.11.09
74.	V. S. Verma	Hydrogeology	30.07.09
75.	Dr. B. Umapathi	Hydrogeology	03.11.09
76.	N. Vinayachandran	Hydrogeology	11.11.09
77.	L. N. Mathur	Hydrogeology	25.09.09
78.	Gautam Sen	Hydrogeology	05.10.09
79.	Rama Kishan	Hydrogeology	12.11.09
80.	G. Y. Setty	Hydrogeology	05.11.09
81.	B. U. M. Rao	Hydrogeology	12.11.09
82.	Km. Anuradha Bhatia	Hydrogeology	13.08.09
83.	R. V. Vidyasagar	Hydrogeology	19.08.09 (AN)
84.	L. J. Balachandra	Hydrogeology	27.07.09
85.	M. L. Angurala	Hydrogeology	27.07.09
86.	A. Kannan	Hydrogeology	27.07.09
87.	J. N. Bhagat	Hydrogeology	27.07.09
88.	Dr. Pandith Madhnure	Hydrogeology	24.07.09 (AN)
89.	Binoy Ranjan	Hydrogeology	21.08.09
90.	Abhay Kumar Pandey	Hydrogeology	14.09.09
91.	Debasish Biswas	Hydrogeology	12.10.09
92.	Sanjeev Mehrotra	Hydrogeology	13.11.09
93.	D. Chakraborty	Hydrogeology	21.08.09
94.	Tejdeep Singh	Hydrogeology	31.08.09
95.	Dr. Neelam Nigam	Chemistry	25.11.09
96.	Smt. Puja Mehrotra	Chemistry	13.11.09
97.	Smt. V. N. Sreelatha	Chemistry	27.07.09

1	2	3	4
98.	Dr. Ram Prakash	Chemistry	24.07.09 (AN)
99.	Smt. B. P. Singh	Chemistry	25.09.09
100.	B. B. Sahoo	Chemistry	24.07.09 (AN)
101.	Dr. S. K. Srivastava	Chemistry	24.07.09 (AN)
102.	K. Ravichandran	Chemistry	27.07.09
103.	Rajababu Thammu	Geophysics	24.07.09 (AN)
104.	Puvvula Narendra	Geophysics	24.07.09 (AN)
105.	C. R. Dass	Geophysics	27.07.09
106.	A. Ramakrishna	Geophysics	24.07.09 (AN)
107.	V. N. Raju	Geophysics	24.07.09 (AN)
108.	S. N. Tata	Geophysics	24.07.09 (AN)
109.	Md. Adil	Geophysics	24.07.09
110.	H. S. Namdeo	Geophysics	09.11.09
111.	Dr. S. L. Dhabai	Geophysics	29.09.09
112.	V. Arul Prakasam	Geophysics	12.11.09
113.	K. Dwarakanath	Hydrogeology	09.11.09
114.	K. B. Sahoo	Hydrogeology	24.07.09 (AN)
115.	A. V. S. S. Anand	Hydrogeology	24.07.09 (AN)
116.	Sandhya Mohapatra	Hydrogeology	24.07.09 (AN)
117.	B. N. Warke	Hydrogeology	03.11.09
118.	V. Elanchelian	Hydrogeology	27.07.09 (AN)
119.	Mini M. Chandran	Hydrogeology	27.07.09
120.	Vidya Nand	Hydrogeology	27.07.09

VINEETH ABRAHAM, Under Secy.

The 23rd November 2010

No. 7/09/2009-CGWB—The President is pleased to appoint the following officers as Assistant Executive Engineers on promotion in the scale of pay in PB-3, Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- in Central Ground Water Board with effect from the dates indicated against each :—

Sl. No.	Name & Designation of the Officers	Date of Promotion
1	2	3
	S/Shri	
1.	S. C. Prasad, DIC	08.02.2010
2.	H. K. Behra, DIC	08.02.2010
3.	Amit Lal, DIC	05.02.2010

1	2	3
4.	Obulesu Dandebayina, DIC	15.02.2010
5.	Amiya Kumar Dash, DIC	16.02.2010
6.	Girija Shankar Senapati, DIC	08.02.2010
7.	S. K. Meena, AE	20.01.2010
8.	V. S. Dagur, AE	19.01.2010

They will be on probation for a period of one year. They may exercise their option within a period of one month from the date of their taking over the charge of the post of Assistant Executive Engineer in case they wish to get their

pay fixed in the new post after the date of their next increment in the present post held by them.

VINEETH ABRAHAM, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 9th November 2010

No. A-12025/1/2008-Sty.—The President is pleased to appoint Shri R. K. Roy as Controller of Stationery in the Government of India Stationery Office in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade of Pay of Rs. 7,600/-) on regular basis w.e.f. 04.11.2010 and until further orders.

G. K. GAUTAM, Under Secy.